

बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

लखनऊ, कानपुर, कन्नौज, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र, गोण्डा, बाराबंकी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अम्बेडकरनगर, फैजाबाद, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में एक साथ प्रसारित।



दैनिक बुद्ध का संदेश 9795951917, 9415163471 @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

रविवार, 05 फरवरी 2023 सिद्धार्थनगर संस्करण www.budhakasandesh.com वर्ष: 10 अंक: 46 पृष्ठ 8 आमंत्रण मूल्य 2/-रूपया

लखनऊ सुचीबद्ध कोड- SDR-DLY-6849, डी.ए.वी.पी.कोड-133569 सम्पादक: राजेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार (DAVP) से सरकारी विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया विंटर एनआईए को मोतिहारी की गेम्स के लिए लॉन्च किया थीम सॉन्ग रेड में मिली बड़ी सफलता

Gulmarg में 10 से 14 फरवरी तक होगा आयोजन

नई दिल्ली। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर का आयोजन 10 से 14 फरवरी के बीच किया जाएगा। विंटर गेम्स के आयोजन से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और एलजी मनोज सिन्हा ने खास कार्यक्रम में इसका थीम सॉन्ग, शुभंकर आदि को लॉन्च किया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और एलजी मनोज सिन्हा ने इसके थीम सॉन्ग, शुभंकर को लॉन्च किया है। शनिवार को जम्मू के उपराज्यपाल भवन में आयोजित कार्यक्रम में जर्सी भी जारी की गई है। इस वर्ष विंटर गेम्स का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जाएगा। इस



उपराज्यपाल ने ली थी समीक्षा बैठक
बता दें कि इससे पहले 30 जनवरी को ही विंटर गेम्स के आयोजन के संबंध में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों की समीक्षा बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया था कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं दिए जाने के इंतजाम होने चाहिए।

पटना। बिहार के मोतिहारी जरिए एनआईए की टीम ने में एनआईए ने दबिश दी है। मोतिहारी में छापेमारी कर संदिग्ध

इस बार एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की पटना और रांची टीम ने मिलकर मोतिहारी के चकिया थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दबिश के



वायरल हुआ था वीडियो
गौरतलब है कि हाल ही में जब नेपाल से आई शीला को अयोध्या ले जाया जा रहा था तो पीएफआई के एक ट्रेनर ने आपत्तीजनक वीडियो को फेसबुक पर अपलोड किया था। इस ट्रेनर का नाम उस्मान बताया गया है। इस वीडियो में ट्रेनर ने कई आपत्तीजनक बातें कही थी। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था।

गंगवार ने की है। बिहार पुलिस के लिए स्थानीय पुलिस से भी और एनआईए की टीम संयुक्त सहायता मांगा था। हालांकि अब रूप से गिरफ्तार किए गए तीन लोगों से पूछताछ कर रही है। पीएफआई सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने तीनों को गुप्त स्थान पर रखा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पटना और रांची एनआईए की टीम ने जिला एनआईए बिहार में पीएफआई को लेकर काफी सख्ती बरत चुकी है। पीएफआई के खिलाफ पहले भी एनआईए ने कई बार कार्रवाई की है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जमीन पर अतिक्रमण कर सरकारी खजाने को लूटने वालों को आड़े हाथ लिया

जम्मू। अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को आश्चर्य किया है कि प्रशासन केंद्र-शासित प्रदेश के निवासियों और आम आदमी की आजीविका की रक्षा करेगा। उन्होंने इस दावे को "भ्रामक सूचना" बताया कि जम्मू-कश्मीर में शुरू किए गए अतिक्रमण रोधी अभियान का असर आम आदमी पर पड़ेगा। गौरतलब है कि लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस अभियान की कड़ी निंदा की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में 'सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट' (सीएसओआई) का उद्घाटन करने के बाद कहा, "मैं लोगों को आश्चर्य करना चाहता हूँ कि प्रशासन निवासियों और आम आदमी की आजीविका की रक्षा करेगा।"



उन्होंने कहा कि अपने पद का दुरुपयोग करने वाले और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले प्रभावशाली तथा शक्तिशाली लोग ही कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। उपराज्यपाल ने कहा, "गैरकानूनी तरीके से जमीन हथियाने वाले लोगों को ही हटाया जा रहा है। मैंने निजी तौर पर उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को अभियान पर करीबी नजर रखने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से कोई निर्दोष व्यक्ति प्रभावित न हो।" सीएसओआई के संदर्भ में सिन्हा ने कहा कि इससे अधिकारियों और उनके परिवारों को फायदा होगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए करीबी सहयोग मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की मुहर

नई दिल्ली। सरकार ने शीर्ष पीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) में शपथ दिलाई जा सकती है। अदालत में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। 13 दिसंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंकज मिथल (राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति संजय करोल (पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार (मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश), न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह (न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय) और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय) को नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने 2 फरवरी को नियुक्तियों को मंजूरी दे दी थी और नामों को नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया था। सूत्रों ने कहा कि अगर नियुक्ति का वारंट शनिवार को जारी होता है तो नए न्यायाधीशों को अगले सप्ताह की शुरुआत में शपथ दिलाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा असामान्य कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दो और नामों की सिफारिश करने के ठीक तीन दिन बाद नियुक्ति की बात सामने आई है। कॉलेजियम आम तौर पर अधिक सिफारिशें भेजने से पहले किसी फाइल को मंजूरी मिलने का इंतजार करता है। 31 जनवरी को, कॉलेजियम ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की सिफारिश की।



मेघालय चुनाव में हुआ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, एनपीपी, यूडीपी को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

शिलांग। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एफआर खारकोंगोर ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने एनपीपी और यूडीपी को इसलिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि पश्चिम शिलांग निर्वाचन क्षेत्र में उनके उम्मीदवारों ने आदर्श आचार संहिता का कथित तौर पर उल्लंघन कर मतदाताओं को 'प्रेशर कुकर' और 'बाउल सेट' वितरित किए। मेघालय विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना दो मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी खारकोंगोर ने कहा कि इन राजनीतिक दलों (एनपीपी और यूडीपी) के उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की खबरों के बाद हमने मामले का स्वतंत्र संचालन लिया है। दोनों दलों के महासचिव को पश्चिम शिलांग विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एनपीपी के उम्मीदवार मोहिंद्रो रैपसांग और यूडीपी के उम्मीदवार पॉल लिंगदोह ने आदर्श आचार संहिता का कथित तौर पर उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को मुफ्त उपहार (प्रेशर कुकर और बाउल सेट) बांटे थे। रैपसांग, विपक्षी दल कांग्रेस के विधायक, हाल में मुख्यमंत्री कोनराड के संगम के सत्तारूढ़ एनपीपी में चले गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए किसी भी तरह का मुफ्त उपहार देने से इनकार किया है और कहा है कि प्रेशर कुकर चुनाव घोषणा से काफी पहले उनकी विधायक निधि से दिये गये थे।



मनोहर लाल खट्टर का बड़ा ऐलान- हरियाणा में एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा। खट्टर ने कहा कि ऐसे सभी संवर्गों की पहचान करके तीन महीने के भीतर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि खट्टर गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे।



पुलवामा और पाकिस्तान के नाम पर वोट दीजिएगा तो आपके गांव में स्कूल कैसे बनेगा: प्रशांत किशोर

गोपालगंज। जन सुराज पदयात्रा के 126वें दिन की शुरुआत गोपालगंज के गांधी कालेज मैदान में पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर पदयात्रियों के साथ गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र से पदयात्रा के लिए निकले। शनिवार को प्रशांत किशोर की पदयात्रा का जिले में 21वां दिन व आखिरी दिन रहा। कहा कि आप अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो दुनिया में कोई आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष जनता बैठकर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करती है, लेकिन जिस दिन मतदान होता है, उस दिन जनता सब भूल जाती है। वोट सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर दिया जाता है, जो जाति से बच जाते हैं यह वह हिंदू, मुसलमान, चीन-पाकिस्तान और पुलवामा के नाम पर वोट देते हैं। प्रशांत किशोर ने पिछले लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहा कि जिस नेता को चुनाव से पहले तक जनता गाली दे रही होती है, उसी नेता को जनता सब भूलकर वोट दे आती है।



हिन्दी दैनिक बुद्ध का संदेश समाचार पत्र

में सरकारी विज्ञापन, निविदा, अदालती नोटिस, सम्मान, सूचना, टेंडर प्रकाशन के लिए आज ही सम्पर्क करें।

सभी जनपदों से आवश्यकता है पत्रकारों की सम्पादक:- दैनिक बुद्ध का संदेश

8795951917, 9453824459

www.budhakasandesh.com E-Mail ID: budhakasandeshnews@gmail.com

सस्पेंड छात्र के समर्थन में भारी मात्रा में एकत्रित हो गए स्टूडेंट्स, फिर लगाए अल्लाह हू अकबर के नारे

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एमयू) में कई छात्रों ने शुक्रवार की नमाज के बाद अल्लाह अकबर और नारा-ए-तकबीर के नारे लगाए। वे राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की वर्दी पहने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने के लिए एक साथी छात्र वाहिदुज्जमा के निलंबन का विरोध कर रहे थे। छात्रों ने अपने साथी छात्र का निलंबन रद्द करने की मांग की। इस संबंध में छात्रों ने एक ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यू-सीरीज में दिखाए गए तथ्य सही थे। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर एमयू में अल्लाह हू अकबर का नारा लगाने वाले छात्र को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया और पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। एनसीसी प्रॉक्टर वसीम अली ने एक बयान में कहा कि कैंपस में बीबीसी फिल्म से जुड़े पोस्टर बाहरी लोगों ने लगाए थे न कि उन्होंने। विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान धार्मिक नारे लगाने वाले एक मुस्लिम छात्र को नारे लगाने वाले छात्र को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया गया है। एमयू के प्रॉक्टर वसीम अली ने एक बयान में कहा कि कैंपस में बीबीसी फिल्म से जुड़े पोस्टर बाहरी लोगों ने लगाए थे न कि उन्होंने। विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान धार्मिक नारे लगाने वाले एक मुस्लिम छात्र को नारे लगाने वाले छात्र को विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया गया है। एमयू के



कैडेट के नारे लगाने का वीडियो अब वायरल हो गया है। हालांकि बाद में कुछ और वीडियो वायरल हुए, जिनमें हिंदू समुदाय के छात्र धार्मिक नारे भी लगा रहे थे। आदेश को वापस लेने की मांग को लेकर कई छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुक्रवार की नमाज के बाद जामा मस्जिद से बाबा सैयद गेट तक एक विरोध मार्च में हिस्सा लिया। छात्रों ने कहा कि दोनों समुदायों ने धार्मिक नारेबाजी में भाग लिया था। उक्त कार्रवाई एक समुदाय के छात्र के खिलाफ की गई, जबकि अन्य को फ्री पास दिया गया। एमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीम अली ने घटनाक्रम की पुष्टि की और कहा कि छात्र अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन उन्हें कानून का पालन करना चाहिए।

जनता दर्शन में आयी फर्जी बैनामे की शिकायत का डीएम ने लिया कड़ा संज्ञान

एसडीएम नानपारा को अपनी देख-रेख में प्रकरण का जांच कराने का दिया निर्देश

बहराइच । फरियादी रामसागर उर्फ भिल्लवा पुत्र मनोहर लाल नि. ग्राम डल्लापुरवा, थाना खैरीघाट, बहराइच वारिदहाल पता पकरियापुरवा थाना ईसानगर, लखीमपुर खीरी ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की जनसुनवाई में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पिता मनोहर लाल पुत्र सूरज लाल के नाम ग्राम डल्लापुरवा परगना व तहसील नानपारा में भूमि गाटा सं. 639 रकबा 1.2910 हे. भूमि

राजस्व अभिलेख में दर्ज है।फरियादी ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुकी है। पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी सहित भाई लाला राम, हरिचन्द्र उर्फ जुगनू, दिलीप तथा माता मोहिनी उर्फ कलावती उपरोक्त भूमि पर काबिज हैं व बराबर खेती करते रहे हैं।

फरियादी ने अपने प्रार्थना-पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि उसके पिता का नाम व विपक्षी ग्राम डल्लापुरवा नि. मनोहर लाल पुत्र सूरज लाल

ने उसके पिता के नाम की समानता का लाभ उठाते हुए अपनी दो सगी विवाहिता पुत्रियों श्रीमती पतरकी व बिट्टा देवी की साजिश से आराजी गाटा सं. 639 में से रकबा 0.645 हे. भूमि का फर्जी बैनामा श्रीमती पतरकी पत्नी संतोश कुमार के नाम 21 नवम्बर 2019 को निष्पादित कर दिया है तथा उसी गाटा सं. में से रकबा 0.6455 हे. भूमि का फर्जी बैनामा बिट्टा देवी पत्नी सोने लाल के नाम 07 अक्टूबर 2022 को तहसील नानपारा में

निष्पादित कर दिया गया है।

फरियादी ने प्रार्थना-पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि विपक्षी की दोनो पुत्रियों द्वारा भूमि का दाखिल खारिज भी करवा लिया है जिस कारण प्रार्थी व उसके परिवार वालों का नाम बतौर वारिसान दर्ज नहीं हो पा रहा है। फरियादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर इस बात का भी उल्लेख किया है कि उसके पिता व विपक्षी के आधार कार्ड में भी भिन्नता है। प्रार्थी ने डीएम से इस प्रकरण में दोषियों के

विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दण्डित कराए जाने की मांग की गई है। जनता दर्शन में फर्जी बैनामे से सम्बन्धित शिकायत का जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी नानपारा को निर्देश दिया है कि अपनी देख-रेख में नायब तहसीलदार को ग्राम में भेज कर स्थलीय जांच कराएं तथा 8 फरवरी को नायब तहसीलदार व सम्बन्धित लेखपाल के साथ उनके समक्ष उपस्थित होकर यथास्थिति से अवगत कराया जाय।

बहराइच। आमजन की समस्याओं के निस्तारण को शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करने, असहायों व निश्चिन्तकों की मदद को हमेशा तत्पर रहने, जिले को विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए नवाचार को तरजीह देने, मुदुलभाषी, गोंवश प्रेमी, हर दिल अजीज जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों बेस्ट इलेक्टरल प्रैक्टिस अवार्ड-2022 से नवाजा गया है।

इस सम्मान के मिलने के बाद जनपद में खुशी का माहौल है। जनपद के कार्यरत विभिन्न संगठनों, गणमान्य व सभ्रान्तजन, मीडिया बन्धुओं, धर्मगुरुओं,

व्यापारिक संगठनों के पदाधिाकारियों के साथ-साथ जिले के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बाई का सिलसिला जारी है।

इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसायटी के प्रबन्ध समिति सदस्य राकेश चन्द्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोसायटी के आजीवन सदस्यों ने स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ भेंट कर जिलाधिकारी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अतिरिक्त

मजिस्ट्रेट, एसडीएम डॉ. पूजा यादव, रेड क्रॉस सोसायटी के आजीवन सदस्य सरदार परविंदर सिंह सम्मी, दिलीप द्विवेदी, ब्रह्म स्वरूप श्रीवास्तव, मोहम्मद दानिश, डॉ. अरशद रईस, हसीब शोर, डॉ. डिंपल जैन, सोनी रोमी, लालता प्रसाद गुप्ता, राजेश अग्रवाल, जितेन्द्र चौधरी, चरनजीत कौर, डॉ. डिंपल जैन, सोनी श्रीवास्तव, ममता रस्तोगी, स्मिता श्रीवास्तव, दीपा आनंद, सीमा कुमारी सहित अन्य मौजूद रहे।

साहित्यकार अहमद सुहेल की याद में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन

दैनिक बुद्ध का सन्देश
डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज। डुमरियागंज स्थित ब्लॉक परिसर में शनिवार को साहित्यकार व विभिन्न सामाजिक



संगठनों से जुड़े रहे अहमद सुहेल की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न वर्गों के लोगों ने सभा में शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार पप्पू रिजवी व संचालन संगठन के तहसील अध्यक्ष राजेश पांडे ने किया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नरेंद्र मणि त्रिपाठी कहा की स्वर्गीय अहमद सुहेल ने कम समय में बड़ी उपलब्धि हासिल की यह समाज सेवा के साथ-साथ एक अच्छे साहित्यकार थे। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद पांडे व सपा नेता राम कुमार उर्फ चिंकू यादव ने कहा कि अहमद सुहेल को उनके कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। एक अच्छे लेखक, वक्ता व डिजाइनर के रूप में कार्य किया। युवा वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। सभा को सजा नेता अफसर रिजवी, प्रधान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष ताकीब रिजवी, आम आदमी पार्टी नेता काजी इमरान लतीफ, प्रधानाचार्य अहमद फरीद अब्बासी, डॉ वासिफ, अजीम ओ शान फारुकी, रियाज अहमद, फरहान अहमद, आरिफ उस्मानी, मनोज सिद्धार्थ, सद्दाम हुसैन आदि ने भी संबोधित किया। श्रद्धांजलि सभा में फरहान हल्लौरी व सारिब हल्लौरी ने अहमद सुहेल की याद में कलाम पेश किया। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुमार उर्फ छोटे पांडे, नफासत रिजवी, ठाकुर प्रसाद मिश्रा, एसके मेहंदी, नौशाद अहमद एडवोकेट, अजय पांडे, जहीर फारुकी, छोटे श्रीवास्तव, गुलजार अहमद, काजी राशिद, काजी रहमतुल्लाह, मैक्स, इंतजार हैदर, संतोष कुमार आसिफ आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

एआरटीओ अरुण कुमार चौबे ने सड़क सुरक्षा माह का किया समापन

दैनिक बुद्ध का सन्देश
सिद्धार्थनगर। जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा माह का शनिवार को एआरटीओ परिसर में समापन किया गया सड़क सुरक्षा माह



पांच जनवरी से लेकर चार फरवरी तक चलाया गया एक महीने तक चल रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया इस अभियान में चार पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करने, नशा व शराब पीकर वाहन न चलाए उचित दूरी बनाकर चलने, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन की गति धीमी करने व पैदल यात्रियों को चलने का अवसर देने, सड़को पर लगे यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने, दो पहिया वाहन चालक को हेलमेट लगाने, वाहन तेज गति से न चलाने के लिए जागरूक किया गया वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने व अन्य नियमों के प्रति भी जागरूक किया गया। एआरटीओ अरुण कुमार चौबे ने बताया कि सभी ट्राफिक पुलिस सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने का काम किया है इस बार ठंड में घना कोहरा भी पड़ा इससे निपटने के लिए ट्राफिक पुलिस के साथ वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाया गया है जिससे लोगों को कोहरे में जैसे ही लाइट पड़े तो मालूम हो सके की कोई वाहन जा रहा है इससे दुर्घटना नही घटित होती है इसका समापन एआरटीओ अरुण कुमार चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सड़क सुरक्षा अभियान का समापन किया।

चौड़ीकरण की प्रगति का कमिश्नर व डीएम ने लिया जायजा

—स्टार्म वाटर ड्रैनेज युटीलिटी डक्ट के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी

अयोध्या। मण्डलायुक्त गौरव दयाल व जिलाधिकारी नितीश कुमार ने गुरुवार को देर शाम श्रीराम जन्मभूमि मंदिर को जोड़ने वाले प्रमुख सम्पर्क मार्गों यथा जन्मभूमि पथ (सुग्रीव किला से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर) तथा राम पथ (सहादतगंज से नयाघाट) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारी द्वय ने जन्मभूमि पथ के कार्य में तेजी लाने व जी0एस0बी0 का कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया तथा

पर्याप्त मानव संसाधन एवं मशीनरी लगाकर अपेक्षित समय के अन्दर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। तदोपरान्त अधिकारी द्वय रामपथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों का जायजा युटीलिटी डक्ट के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की तथा अधिक से अधिक मानव संसाधनमशीनरी लगाकर कार्य को तीव्र गति से कराने के निर्देश सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को दिये। इस दौरान अधिकारी

द्वय द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित अन्य कार्यों यथा बैनामों, दुकानों/ध्वनों के ध्वस्तीकरण तथा मलबा हटाने के कार्य को भी तीव्र गति से कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी के क्रम में मण्डलायुक्त महोदय व जिलाधिकारी नितीश कुमार ने अपर जिलाधिकारी नगर सलिल कुमार पटेल, एस0पी0 सिटी मधुबन कुमार सिंह, अधिाशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-3 व 4, सी0ओ0 अयोध्या, सहायक

अभियन्ता एवं जूनियर अभियन्ता लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-3 तथा कान्स्ट्रक्टर के साथ मण्डलायुक्त कैम्प कार्यालय में बैठक कर राम पथ को कई चौनेज में विभाजित कर प्रत्येक चौनेज में अलग-अलग पर्याप्त मानव संसाधनधमशीनरी व साइड इंजीनियर लगाकर प्रत्येक दिन की कार्य योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से रोजाना के लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रगति कराने तथा अपेक्षित समय के अंदर कार्य पूर्ण करने हेतु

कान्स्ट्रक्टर को निर्देशित किया। उन्होंने डक्ट निर्माण में अच्छी सामग्री एवं कारीगरी का प्रयोग करने तथा डक्टधनाली के अन्दर और बाहर दोनों तरफ अच्छी फिनिशिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर मण्डलायुक्त ने अपर जिलाधिकारी नगर व पुलिस अधीक्षक नगर को कान्स्ट्रक्टर के नियमित सम्पर्क में रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसका तत्काल निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।

उन्होंने सी0ओ0 अयोध्या को भी नियमित निर्माण कार्य क्षेत्र में भ्रमण शील रहने के निर्देश दिये। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, विद्युत, नगर निगम, जलनिगम आदि विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने तथा जन सामान्य की समस्याओं को भी गम्भीरता से सुनकर उनका त्वरित निराकरण कराते रहने के निर्देश दिये। अधिकारी द्वय ने जन सामान्य को आवागमन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित रखते हुये कार्य कराने तथा सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये।

सातवें दिन भी जारी रहा भाकियू कार्यकर्ताओं का धरना

अयोध्या। विभिन्न समस्याओं तथा संयुक्त खंड विकास अधिकारी हरिशंकर मिश्रा के दुर्घटन एवं अश्लील हरकत को लेकर भारतीय किसान यूनियन नेताओं द्वारा चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन धरना सातवें दिन भी जारी रहा। किसान समस्याओं का समाधान करने को लेकर धरना स्थल पर एडीओ पंचायत उमाशंकर सिंह, एडीओ समाज कल्याण मनीष वर्मा, एडीओ आईएस्वी सुरेश कुमार, के साथ पहुँचे

बीडीओ अनिशि मणि त्रिपाठी ने भाकियू नेता अरविंद गोस्वामी व संतोष वर्मा सहित आंदोलनकारियों से वार्ता की। लेकिन धरनाकारी पूर्व दिये गये समस्याओं के समाधान हुये बिना धरना खत्म करने पर तैयार नहीं हुये। जिससे भाकियू नेताओं व बीडीओ की वार्ता विफल रही। और आगामी छः फरवरी को किसान महापंचायत करने पर अड़े रहे भाकियू नेताओं के तेवर देख अधिकारी बीच के विकल्प की तलाश में धरना खत्म कराने

का नुस्खा ढूढ रहे हैं। बीडीओ ने एडीओ पंचायत के नेतृत्व में उपरोक्त अन्य विभागों से जुड़े अधिकारियों की टीम बनाकर तारापुर गांव पंचायत में भेजा है।

गांव पंचायत निवासी व संगठन के तहसील अध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक आधा दर्जन आवास नहीं बनवाये ग्रे है और तत्कालीन प्रधान व पंचायत सचिव व आपसी साठगांठ से सराकरी धान की बन्दर बांट किया गया

है। श्री वर्मा ने कहा कि पूर्व में शौचालय निर्माण के निर्गत रकम लाभार्थी गटक गये और शौचालय नहीं बनवाया। तारापुर गांव पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के चयनित लाभार्थियों में पात्र का नाम काटकर अन्य को आवास का लाभ पंचायत सचिव द्वारा दिलवा दिया गया। इसी मामले की स्थलीय जांच करने टीम गांव में गयी हैं। धरने में राम नयन यादव, दयाराम, गुरुदीन वर्मा, राजमणि दुबे, लल्लू उपाध्याय मौजूद रहे।

जी-20 से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मिलेगी पहचान

अयोध्या। डॉ. रामनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में भारत के जी-20 की अध्यक्षता को लेकर छात्र-छात्राओं के बीच भारतीय लोक कला गायन प्रतियोगिता व नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो0 प्रतिभा गोयल के दिशा-निर्देशन में जी-20 में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने के लिए विश्वविद्यालय के आईईटी संस्थान के कल्पना चावला सभागार में लोक कला गायन सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसमें छात्र-

छात्राओं ने बढचढ कर हिस्सा लिया। लोक कला गायन प्रतियोगिता में अस्मिता व आफरीन प्रथम स्थान पर रही। वहीं द्वितीय स्थान पर साक्षी व अर्पूवा तथा तृतीय स्थान अंकिता व प्रतिभा ने प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता की निर्णायक डॉ0 वन्दिता पांडे व इंजीनियर शाम्बी एम शुक्ला रही। वहीं दूसरी ओर एप्ताइड साइकोलॉजी के छात्र-छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया

गया। छात्रों ने 'सम्भव' थीम पर लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि मानसिक बीमारी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है।

इसे सही इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसमें शुभम, अनिरुद्ध, मुदुल, कीर्ति, अमीषा, काजल, गौरव, आफरीन, संजीदा, शिवानी, प्रजा, सुधीर, संजीव, साक्षी व सुहानी द्वारा नाट्य मंचन किया गया। नुक्कड़ का संयोजन एप्ताइड

साइकोलॉजी की शिक्षिका डॉ0 प्रतिभा त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय जी-20 समिति के सदस्य प्रो0 शैलेन्द्र कुमार वर्मा, प्रो0 रमापति मिश्र, डॉ0 सुखेंद्र मिश्र, डॉ0 आशीष पांडे, अंकित मिश्रा, डॉ0 प्रभात सिंह, डॉ0 जितेंद्र कोषाल, डॉ0 शिवांश कुमार, डॉ0 हिमांशु मिश्रा, डॉ0 सरिता सिंह, डॉ0 वन्दिता पटेल, श्रिया श्रीवास्तव, स्वाति सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागी उपस्थित रहे।

इस्माइलपुर के जंगलों में दूसरी बार मृत गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिले, मुकदमा पंजीकृत दर्ज

दैनिक बुद्ध का सन्देश
बरेली। जनपद के थाना

दिया गया। इस्माइलपुर के ग्रामीणों का आरोप है कि ये दूसरी बार मृत

शिवू ठाकुर ने बताया यहां रातभर गायां को काटा गया जिनके



विशारतगंज क्षेत्र से गौ कशी का मामला पुकाश में आया है यहां के गांव इस्माइलपुर के जंगलों में भारी तादाद में गौ कशी की घटना को अंजाम दिया गया गौवंशीय पशुओं के अवशेष जंगल में इधर उधर पड़े हुए पाये गये बताया जा रहा है ये कोई पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार इन जंगलों में गौवंशीय पशुओं की गौ कशी की गई कुछ दिन पूर्व भी यहां कई गौ वंशीय पशु मृत अवस्था में व उनके अवशेष पाये गये जिनको जेसीबी की मदद से दफन करा

अवस्था में गौवंशीय पशु व उनके अवशेष पाये गये हैं। ग्रामीण दीनदयाल पाल का आरोप है कि यहां पर अभी बीते कुछ ही दिनों में पहले लगभग 8 या 10 गौ वंशीय पशु मृत अवस्था में पाये गये थे जिनमें लगभग पांच गौ वंशीय पशु कटे हुये अवस्था में थे जिनको थाना पुलिस ने जेसीबी की मदद से दफन करा दिया। अब ये दुबारा लगभग 20 गौ वंशीय पशुओं का कटान हुआ है जिनके अवशेष पुलिस बोरियों में भरबाकर ले जा रही है। ग्रामीण शिवकुमार सिंह उर्फ

अवशेष इधर उधर पड़े हैं और ये चंद दिनों में गौकशी की दूसरी घटना है। ग्रामीण बुधपाल ने बताया यहां ये दूसरी बार गौकशी हुई

अभी कुछ दिनों पहले भी कई गौ वंशीय पशुओं को काटा गया जिनके अवशेष पुलिस ने दफन करा दिये। आपको बता दें इस्माइलपुर के जंगलों में गौकशी की इस दूसरी घटना से क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है बताया जाता है क्षेत्र में बड़ी मात्रा में गौ वंशीय पशुओं का कटान करने वाली गिराह सक्रिय है वहीं थाना विशारतगंज पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया।

हत्या के दोषी बबुंदर को 6 वर्ष की कैद

साढ़े 13 वर्ष पूर्व भूत प्रेत के चक्कर में चाकू से प्रहार कर हुई केशिया देवी हत्याकांड का मामला

दैनिक बुद्ध का सन्देश
सोनभद्र। साढ़े 13 वर्ष पूर्व भूत प्रेत के चक्कर में चाकू से प्रहार कर हुई केशिया देवी हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सोनभद्र राहुल मिश्रा की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोष सिद्ध पाकर दोषी बबुंदर को 6 वर्ष की कैद एवं 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के पतगढी कोटा टोला निवासी कामता प्रसाद पुत्र स्वर्गीय रामसुमेर ने थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 22 फरवरी

2009 को दोपहर बाद करीब ढाई बजे दिन में उसकी मां केशिया देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी उसी समय उसके चाचा का लड़का बबुंदर पुत्र इंदर आ गया और भूत प्रेत को लेकर उसकी मां को गाली देने लगा और जान से मारने की धमकी भी देने लगा। जब उसकी मां ने गाली देने से मना किया तो बबुंदर ने गुस्से में सब्जी काटने वाले चाकू से कई जगह प्रहार करके घायल कर भाग गया। जानकारों मिलने पर जब घर आया तो उसकी मां दरवाजे पर घायलावस्था में पड़ी थी। जिसे लोगों की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जिसकी इलाज के दौरान

दूसरे दिन मौत हो गई। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बबुंदर को 6 वर्ष की कैद एवं 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने बहस की।



सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन में 56 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत, 01 का निस्तारण

विदाई समारोह आयोजित, छात्र हुए प्रोत्साहित



दैनिक बुद्ध का सन्देश सिद्धार्थनगर शासन के निर्देश पर तहसील इटवा में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द की उपस्थिति में तहसील समाधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तहसील इटवा में आयोजित सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर राजस्व, विकास, शिक्षा, पूर्ति एवं अन्य विभागों के शिकायतों की सुनवाई जिलाधिकारी संजीव रंजन, उपजिलाधिकारी इटवा विकास

कश्यप द्वारा किया गया तथा पुलिस विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों की सुनवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनन्द द्वारा किया गया। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस इटवा में उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गरीबों, असहायों को उचित एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। किसी भी पीड़ित व्यक्ति को उचित न्याय दिलाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। किसी भी विभाग

का तहसील दिवस का कोई भी प्रकरण लम्बित नहीं होना चाहिए यदि किसी भी विभाग का प्रकरण लम्बित पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर कुल 56 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिसमें राजस्व-31, पुलिस विभाग से सम्बन्धित-07, विकास-05, पूर्ति-03, विद्युत-04 एवं अन्य 06 प्रकरण प्रस्तुत हुए। जिसमें राजस्व-01 प्रार्थना-पत्र को जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा मौके पर ही निस्तारित करा

दिया गया। तहसील दिवस में अवशेष शिकायती प्रार्थना पत्रों को तीन दिवस के अन्दर शत-प्रतिशत निस्तारण की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के अधिकारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस कार्यक्रम के इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्त क्षेत्राधिकारी इटवा, जिला विद्यालय निरीक्षक अवधेश नारायण मौर्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप कृषि निदेशक अरविन्द कुमार विश्वकर्मा, जिला कृषि अधिकारी

सी0पी0सिंह, बन्दोबस्त अधिकारी चक्रवर्ती मेघवरण, जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय, जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 राहुल गुप्ता, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तन्मय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी एजाजुल हक खान, तहसीलदार इटवा, तहसील इटवा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त थानाध्यक्ष एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

दैनिक बुद्ध का संदेश तुलसियापुर। बढनी ब्लाक

विधायक विनय वर्मा ने कहा कि छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा

की जा सकती है। युवाओं को बेहतर शिक्षा व रोजगार देने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारें हरसंभव प्रयास भी कर रही हैं। युवाओं को जागरूक होकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के जीवन में इंटरमीडिएट की शिक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। इस दौरान प्रबंधक अनुपम शुक्ल, अध्यापक मयंक शुक्ल, प्रधानाचार्य रवि शुक्ल, हरीश वर्मा, शहशाह आलम, रवि अग्रवाल, महेश वर्मा, गुलाम



के तुलसियापुर चौराहे पर स्थित पं.बाबूराम शुक्ल विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज परिसर में शुक्रवार को 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को विदाई दी गई। वहीं नौवीं और 11वीं के छात्र-छात्राओं के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि शोहरतगढ़

हासिल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। युवाओं की बेहतर शिक्षा के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है और इसका लाभ भी युवाओं को मिल रहा है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से शिक्षा को अपनी प्राथमिकता में शामिल करने की सलाह दी। कहा कि बेहतर शिक्षा हासिल कर ही लक्ष्य की प्राप्ति

रसूल, देवनाारायण यादव, आशाराम यादव संतप्रसाद, जितेन्द्र शुक्ल, धन्वज पाठक, सुनील यादव, सुमेरु गिरी, विश्वनाथ यादव, रामकिशोर, प्रदीप मौर्य, बालगोविंद यादव, अशोक मिश्र, दीक्षा शुक्ला, नेहा अग्रहरि, साधना श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

ध्यान लगाकर करें परीक्षा की तैयारी, रिवीजन के साथ-साथ लिखने का भी करें अभ्यास

परीक्षा की तैयारी के लिए विषयवार समय प्रबंधन भी जरूरी

दैनिक बुद्ध का सन्देश तुलसियापुर। बढनी ब्लाक परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है। छात्र-छात्राएं परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। अब केवल रिवीजन का समय बचा है। ऐसे में शिक्षाविद ने छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के टिप्स दिए हैं। उनका कहना है कि परीक्षा की तैयारी करते समय तनाव बिल्कुल न लें और ध्यान लगाकर तैयारी करें। शिक्षकों ने छात्रों को रिवीजन के साथ-साथ लिखने का अभ्यास करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि लिखने का अभ्यास करने से लिखित परीक्षा में पेपर हल करने में आसानी रहेगी। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा की तैयारी करने के लिए विषयवार समय का प्रबंधन करना भी जरूरी है। इससे परीक्षा की

तैयारी करने में आसानी होगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्र तनाव न लें, बल्कि तनावमुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा की तैयारी रूटीन में चलने वाली पढ़ाई की तरह करें, इससे परीक्षा की तैयारी करने में आसानी होगी। परीक्षा की तैयारी में परेशानी आने पर छात्र-छात्राएं विशेषज्ञों से सलाह

ले सकते हैं।—यूपी बोर्ड के हाईस्कूल परीक्षार्थी पहली बार ओएमआर सीट पर परीक्षा देने के लिए मुख्य समस्या विकल्प को बदलने से संबंधित है इस मामले में अपने कक्ष निरीक्षक से सलाह जरूर लें।—परीक्षा में गणित और विज्ञान के प्रश्नों को हल करने में परेशानी न हो इसके लिए गणित व विज्ञान के सूत्रों को बार-बार लिखकर देखें और याद करें। लिखकर याद करने से सूत्रों को आसानी से याद किया जा सकता है। इस

बाद परीक्षा के दौरान 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे इसका उत्तर ओएमआर शीट पर प्रश्न का उत्तर आंसर शीट में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोलों में निशान लगाकर दे।

प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। ओएमआर शीट पर जवाब देते समय कटिंग या ओवर राइटिंग नही करनी है। ओएमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें साथ ही उसे खुरचे नही, ऐसा करने पर उस उत्तर का मूल्यांकन नही होगा।—

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष आदित्य कुमार शुक्ल की अगुवाई में महासंघ के सैकड़ों शिक्षकों की उपस्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र पाण्डेय को मिटाई खिला कर खुशियां मनाई तथा अनेकों शिक्षकों शिक्षिकाओं शिक्षामित्रों की वेतन संबंधी समस्याओं का निवारण हेतु लेखाविभाग से अवगत कराया। तथा पदोन्नति हेतु यथाशीघ्र वरिष्ठता सूची बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया जिसपर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित को जल्द सूची बनाने का आदेश दिया। तथा बर्डपुर ब्लॉक पर एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन होना है जिसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुमति प्रदान की। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष अमय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवपाल सिंह, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, ब्लॉक अध्यक्ष नौगढ़ सुरेंद्र गुप्ता, ब्लॉक अध्यक्ष बर्डपुर लोकेंद्र, अध्यक्ष लोटन संतोष पाण्डेय, अध्यक्ष शोहरतगढ़ मनीष सिंह, प्रवीण मिश्र, रमेश जायसवाल, अरुण, राम राज पांडेय आदि लोग उपस्थित रहे।



उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक

दैनिक बुद्ध का सन्देश बांसी। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ, सिद्धार्थनगर की



एक आवश्यक बैठक विकास क्षेत्र बांसी के प्राथमिक विद्यालय सूप घाट पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संरक्षक सदस्य प्रदेश कार्यसमिति सतीश चंद्र त्रिपाठी ने तथा संचालन जिला मंत्री अतुल कुमार मिश्रा ने किया। बैठक में सर्वप्रथम विधान परिषद के चुनाव में देवेन्द्र प्रताप सिंह के जीतने पर सभी पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर किया स उन्होंने बहुत-बहुत बधाई दिया गया। जनपद के शिक्षकों की समस्याओं पर विस्तार रूप से चर्चा करते हुए शिक्षकों के बकाया भुगतान, जीपीएफ खाते में जमा धनराशि का पासबुक बनवाने, शिक्षकों की अन्य समस्याएं, संगठन की मजबूती, संगठन के विस्तार, पुरानी पेंशन बहाली प्रदेश संगठन द्वारा शिक्षकों के हितों के लिए किए जा रहे कार्यों आदि पर विस्तार पूर्वक आपस में चर्चा किया गया स तत्पश्चात ब्लॉक अध्यक्ष नंदीश्वर यादव के द्वारा आयोजित सह भोज में सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इस बैठक में प्रमुख रूप से सतीश चंद्र त्रिपाठी संरक्षक, देवेन्द्र यादव अध्यक्ष, अतुल कुमार मिश्रा जिला मंत्री, मिर्जा महबूब हसन कोषाध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री कलीमुल्लाह सहित बृजेंद्र मिश्र, संजय कनौजिया, शाहाब मजहूर, दिनेश चंद्र मिश्र, इफतेखारुन्नीशा, विजय बहादुर राय, व्यंकट चंद्रशेखर, महेश कुमार, वीरेंद्र मौर्य दिवाकर कांत मिश्रा, नरसिंह यादव, कोमल मिश्रा, पारुल शुक्ला, राकेश कुमार शर्मा, मुकुल चंद्र बाजपेई, अजय कुमार यादव, अशोक सिंह, सुनील कुमार पाठक, रवि यादव, मोहित कुमार, चंद्रभूषण तिवारी आदि तमाम शिक्षक उपस्थित रहे।

समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन होने पर उपजिलाधिकारी ने किया सम्मानित

दैनिक बुद्ध का सन्देश सिद्धार्थ नगर। तहसील नौगढ़ में लेखपाल पद पर

कार्यरत लेखपाल मुनीन्द्र नाथ त्रिपाठी का चयन समीक्षा अधिकारी पद पर हो जाने पर

उपजिलाधिकारी नौगढ़ डॉ0ललित कुमार मिश्र की अध्यक्षता एवं रामकरन गुप्ता के

संचालक में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को तहसील समाधान दिवस का समय समाप्त होने पर तहसील समाक्ष में उपजिलाधिकारी सदर डॉ0 ललित कुमार मिश्र ने उनके सम्मान में कहा कि जिस तरह मुनीन्द्र नाथ त्रिपाठी ने 2016 से लेखपाल पद पर कार्य करते हुए यह मुकाम हासिल किया है उसी तथा जो भी लेखपाल तैयारी कर रहा है वह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो। जो भी लेखपाल तैयारी कर रहा है वह जब भी चाहे हमसे भी कुछ टिप्स ले सकता है। हमारा पूरा सहयोग रहेगा। कार्यक्रम में तहसीलदार रामरूपि रमन, नाथ तहसीलदार बिन्देश गुप्ता, माधुर्य यादव, राजस्व निरीक्षक विजय गुप्ता, शीतल द्विवेदी, अम्बरीश, नजमुल हासन, अशोक, लेखपाल विनय, सुधीर, कृष्ण भूषण, गणेश, इंद्रमणि, महेंद्र, मनीष, देवेन्द्र, दुर्गेश, रामकुमार, रणधीर, विमल रवि, उस्मान, विनोद, आरती, श्रद्धा, लक्ष्मी, प्रिया, प्रियंका, प्रीती आदि उपस्थित रही।



कोतवाल अनुज कुमार सिंह ने किया रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पैदल गस्त

दैनिक बुद्ध का सन्देश बांसी। कोतवाली पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पैदल



गस्त कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। आपकी सतर्कता से न सिर्फ अपराध रुकेगा बल्कि क्षेत्र में शांति भी रहेगी। सीओ देवी गुलाम ने शनिवार को पूरे क्षेत्र में आर ए एफ टीम व पुलिस फोर्स के साथ संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए पैदल मार्च किया। पैदल गस्त करते हुए सीओ बांसी ने आम जनमानस में सुरक्षा भावना का संचार किया। यह रूटमार्च कोतवाली बांसी से शुरू होकर रोडवेज चौकी होते हुए पिट्टोरा पंप तिराहा से मंगल मोड़ होते हुए राप्ती नदी व नरकटहा रानी गंज से वापस बांसी नौगढ़ एन एच पर राप्ती नदी से वापस कोतवाली आकर खत्म हुआ। इस दौरान जगह-जगह खड़े सन्दिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई। सीओ ने सभी को चेताया कि आप कोई भी उपद्रव ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस को सूचित करें, पुलिस आपका सहयोग करेगी। आपकी सतर्कता से न सिर्फ अपराध रुकेगा बल्कि क्षेत्र में शांति भी रहेगी। सन्दिग्ध व्यक्ति देखे तो करें सूचित करें। इस दौरान कोतवाल अनुज कुमार सिंह, एस आई आर पी सिंह सेगर, योगेश मणि, नागेश सिंह, आनंद कुमार सिंह, कैलाश नाथ यादव, हेड कांस्टेबल गणेश सिंह आदि शामिल थे।

भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला की तैयारी के लिये आस्ट्रेलियाई को मिला 'डुप्लीकेट अश्विन' के आरोप में ITA ने लगाया 21 महीने का बैन

भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला की तैयारी की कवायद में स्पिनरों की मददगार पिच पर बल्लेबाजी अभ्यास के लिये आस्ट्रेलियाई टीम 21 वर्ष के स्पिनर महीश पिथिया की सेवायें ले रही है जिनका एक्शन रविचंद्रन अश्विन से मिलता है। आफ स्पिनर अश्विन को लेकर आस्ट्रेलियाई खेमा काफी चिंतित है। आस्ट्रेलिया ने 2004 के बाद से भारत में टेस्ट श्रृंखला नहीं जीती है। चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला नौ फरवरी से नागपुर में शुरू होगी। क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलियाई टीम ने टेस्ट दौरे के पहले अभ्यास सत्र में




गेंदों का सामना किया है। इसमें कहा गया, "स्पिन का सामना करने पर फोकस रहा और स्थानीय नेट गेंदबाजों में पिथिया अलग थे। उन्होंने कोई ब्रेक लिये बिना लगातार

गेंदबाजी की और स्मिथ, मार्नस लुबुशेन और ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाजों को परेशान किया। गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले पिथिया ने 11 वर्ष की उम्र से पहले अश्विन को गेंदबाजी करते नहीं देखा था क्योंकि

उनके पास टीवी नहीं था। उन्होंने पहली बार 2013 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अश्विन की गेंदबाजी देखी और तभी से उन्हें आदर्श मानते हैं। दिसंबर में बड़ोदा के लिये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पिथिया को आस्ट्रेलियाई टीम ने सोशल मीडिया पर उनके फुटेज देखने के बाद यहां बुलवाया। रिपोर्ट में कहा गया, "अश्विन से मिलने वाली चुनौती का मुकाबला दुनिया का कोई स्पिनर नहीं कर सकता लेकिन पिथिया आस्ट्रेलियाई टीम की मदद कर रहे हैं ताकि आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मदद मिल सके।

स्टार जिम्नास्ट और खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित दीपा कर्माकर के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। दीपा कर्माकर पर पूरे 21 महीनों का बैन लगा दिया गया है। ये बैन इंटरनेशनल टेरिस्टिंग एजेंसी ने दीपा पर लगाया है क्योंकि वो प्रतिबंधित दवा हाइजेनामाइन लेने के लिए दोषी पाई गई है। जानकारी के मुताबिक दीपा कर्माकर के नमूने 11 अक्टूबर 2021 को प्रतियोगिता से बाहर लिए गए थे। इसके बाद जांच में दीपा का परीक्षण सकारात्मक आया है, जिससे वो डोपिंग की आरोपी पाई गई है। उन पर



काम करने के लिए राहुल को प्रत्येक दिन के लिए महज 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। सिर्फ यही नहीं उन्हें सिर्फ उस दिन के लिए पैसे दिए जाते हैं जिस दिन वो काम करते हैं। काम ना मिलने पर भुगतान भी नहीं किया जाता है।



काम करने के लिए राहुल को प्रत्येक दिन के लिए महज 500 रुपये का भुगतान किया जाता है। सिर्फ यही नहीं उन्हें सिर्फ उस दिन के लिए पैसे दिए जाते हैं जिस दिन वो काम करते हैं। काम ना मिलने पर भुगतान भी नहीं किया जाता है।

जानकारी दी कि टेस्ट में दीपा ने सकारात्मक परीक्षण दिया है। 11 अक्टूबर 2021 को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्ट की तरफ से ये टेस्ट किया गया था, जिसके रिजल्ट सकारात्मक आए हैं। गौरतलब है कि इस टेस्ट के बाद से दीपा ने किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है। वहीं वर्ष 2018 में उनके घुटने की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो लगातार रिकवर ही करती रही है।

ओलंपिक में किया था भारत का नाम रौशन किया था। वो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधि त्व करने वाली पहली जिम्नास्ट थीं। रियो ओलंपिक में दीपा ने उस पर प्रतिबंध लगाता है। जानकारी के मुताबिक दीपा पर ये टेस्ट वर्ष 2021 में किया गया था। इस संबंध में इंटरनेशनल डोपिंग एजेंसी ने दीपा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था।

भारत में बनी आई ड्रॉप से अमेरिका में चली हुई कई लोगों की आंखों की रोशनी, फार्मा कंपनी पर ड्रग कंट्रोलर का ठापा

यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर अमेरिका में दी गई अपनी दवा की पूरी खेप को वापस



मांग रहा है। कंपनी पर आरोप है कि उसकी दवा डालने से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जबकि एक की मौत हो गई। इस खबर के बाद केंद्रीय एजेंसी भी हरकत में आ गई। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन और तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोलर ने चेन्नई स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर पर देर रात छापा मारा। ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर, चेन्नई से 40 किमी दक्षिण में स्थित है।

दोनों दलों में तीन-तीन अधिकारी हैं। सामने आए 55 मामले: अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) ने एक बयान में कहा कि चेन्नई स्थित कंपनी ड्रगरीकेयर, एलएलसी और डेलसेम फार्मा द्वारा उपभोक्ता स्तर पर वितरित की जा रही 'आर्टिफिशियल टियर्स ल्यूब्रीकैंट' आई ड्रॉप को संभावित संदूषण के चलते वापस ले रही है। बयान में कहा गया है कि आज की तारीख तक, आंखों में संक्रमण, स्थायी रूप से आंखों की रोशनी चले जाने और रक्तधारा संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत होने सहित आंखों को नुकसान पहुंचाने के 55 मामले सामने आ चुके हैं। कंपनी ने क्या कहा?: कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किये गये एक बयान में कहा है कि इसने इस उत्पाद के वितरकों अरु फार्मा इंक और डेलसेम फार्मा को इसकी सूचना दी है तथा अनुरोध कर रहा है कि थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और ग्राहक, जिनके पास भी यह (वापस लिया जा रहा) उत्पाद है वे इसका उपयोग बंद कर दें।

देसी अंदाज में बिल गेट्स ने रोटियां बनाईं, घी के साथ चटवारे लेकर खाईं, अब इस पर च्द मोदी की ये प्रतिक्रिया आई

माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो रोटियां बनाते और इसे घी के साथ खाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ अमेरिकी सेफ ईटन बर्नथ भी हैं। सेफ ईटन बर्नथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है। इसमें वो बिल गेट्स को रोटियां बनाना



सिखा रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने रोटी बनाना कहां और किससे सीखा था। वीडियो की शुरुआत में सेफ ईटन दुनिया के चौथे सबसे अमीर बिजनेसमैन बिल गेट्स का परिचय करवाते हैं। फिर वो बिल गेट्स को नई डिश यानी रोटी के बारे में बताते हैं। इसके बाद गेट्स चम्मच से आटा गूंदते नजर आते हैं। वीडियो में गेट्स रोटियां भी बेलते हैं और फिर रोटी को घी के साथ चटकारे लेकर खाते हैं। अब इसको लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। पीएम मोदी ने रोटी बनाने की कोशिश की तारीफ करते हुए लिखा कि शानदार बिल गेट्स, भारत में लेटेस्ट ट्रेंड मिलेट यानी मोटे अनाज का है। ये काफी पोष्टिक होता है। मोटे अनाज से कई व्यंजन तैयार होते हैं। आप उन्हें बनाने की कोशिश कर सकते हैं। गौरतलब है कि भारत में इस समय मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। श्री अन्न को देवाना भी कहते हैं। मोटे अनाजों को श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। श्री अन्न को अनाजों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वक्त के साथ लोग गेहूं, चावल की ओर तेजी से बढ़ते चले गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में श्री अन्न (मोटा अनाज) का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

राष्ट्रीय स्तर के एथलीट के बुरे हाल, सिर्फ 500 रुपये के लिए ठिठुरती ठंड में रात भर करनी पड़ती है ड्यूटी

राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके एक एथलीट की हालत ऐसी है कि दिल्ली की ठिठुरती ठंड में उसे कोल्ड स्टोर में काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है। राहुल, नाम तो सुना ही होगा मगर हालत ऐसी जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। नेशनल लेवल पर कई मेडल जीतने वाले एथलीट राहुल जीवन गुजर बसर करने के लिए कोल्ड स्टोर में दूध के पैकेट ट्रक में लोड करने का काम करते हैं।

दूध के पैकेट ट्रक में लोड करने का काम नाइट शिफ्ट में करते हैं। उनकी शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक होती है। इस शिफ्ट में लगातार वो काम करते रहते हैं। पूरी रात ठंड में कोल्ड स्टोर में काम करने के बाद वो सुबह अपनी ट्रेनिंग के लिए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम जाते हैं। हालांकि राहुल का कहना है कि उन्हें दिन में नौकरी करने की जरूरत है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर सकें।



बेहद कठिन होती है परिस्थितियां इस कोल्ड स्टोर में काम करने की परिस्थितियां काफी कठिन और कठोर होती है। यहां काम करने एक खुले फ्रीजर में चलने जैसा होता है। यहां काम करते करते मेरे हाथ और पैर सुन्न पड़ जाते हैं मगर मेरे पास यहां काम करने के अलावा कोई

और विकल्प नहीं है। बता दें कि पूरी संभावना रहती है। बता दें कि राहुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के शिखरपुर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बताया कि शुरु में कुछ समय उत्तर प्रदेश में वो अपने भाई के साथ रहे मगर भाई उन्हें पालने में सक्षम नहीं था। इसके बाद 13 वर्ष की आयु में वो किसी तरह से बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने लगभग आठ महीने रहने और लंगर में खाना खाकर अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने बताया कि लंगर में वो कई बार लोगों के लिए खाना भी बनाते थे। गुरुद्वारा में रहते हुए राहुल ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई के साथ ही दूध डेरी में काम करने का मौका मिल गया।

मात्र 500 रुपये में करते हैं काम: बता दें कि रात भर ठंड में कोल्ड स्टोर में रिस्क से भरपूर

कठिन परिस्थितियों के बीच मकान मालिक के बेटे के साथ ही राहुल ने ट्रेनिंग की शुरुआत की। इस ट्रेनिंग की बदौलत ही राहुल ने वर्ष 2016 में पहला बार 10 किलोमीटर की अंडर 20 रেস में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो लगातार खेल में काफी अच्छा काम करते गए। स्पोर्ट्स कोटा के तहत ही राहुल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में काम करने का मौका मिला। हालांकि वो फीस जमा नहीं कर सके और उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा।

शाहीन आफरीदी बने शाहीद आफरीदी के दामाद, निकाह में बाबर आजम, सरफराज अहमद भी हुए शामिल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी का निकाह हो गया है। शाहीन ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीद आफरीदी की बेटी अंशा से निकाह किया है। दोनों



का निकाह 3 फरवरी को कराची में हुआ है। सिटी ऑफ लाइट कहे जाने वाले कराची में हुए इस निकाह में पाकिस्तान के खेल जगत के कई दिग्गजों समेत करीबियों ने हिस्सा लिया है।

शाहीन और अंशा के निकाह की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। शाहीन के साथी और फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें निकाह की बधाइयां दे रहे हैं। बता दें कि दोनों की सगाई दो वर्ष पहले हुई थी। कोरोना वायरस के कारण दोनों के निकाह में समय लग रहा था। लंबे समय से चर्चा थी की दोनों निकाह कर सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक अंशा की मेहंदी सेरेमनी दो फरवरी की रात आयोजित हुई थी। इसके बाद दोनों का निकाह कराची में किया गया। बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। वो अपनी तेज गेंदबाजी में प्रदर्शन के लिए काफी चर्चा में रहे हैं। टीम के लिए समय समय पर शाहीन का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है।

खिलाड़ियों ने शेर की निकाह की फोटोज शाहीन के निकाह में उनकी टीम के कई साथियों ने हिस्सा लिया है। इस निकाह के कई फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम की कप्तान बाबर आजम ने भी शाहीन के निकाह में हिस्सा लिया। उन्होंने शाहीन को गले लगाकर बधाइयां भी दी।

कई क्रिकेटरों कर चुके हैं शादी गौरतलब है कि इन दिनों क्रिकेट की दुनिया में शादी का सीजन चल रहा है। बीते कुछ दिनों में कई क्रिकेटरों ने शादी की है। इसमें भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल, गेंदबाज अक्षर पटेल का नाम भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने भी मॉडल मुन्ना मसूद से निकाह किया था। बल्लेबाज शान मसूद ने निशा खान से निकाह किया था। वहीं शादाब खान ने कोच सकलैन मुशाताक की बेटी से शादी की थी।

रूस और यूक्रेन की जंग: हाथों में एटमी ब्रीफकेस, दुनिया को पुतिन का विनाशकारी संदेश

हर गुजरते वक्त के साथ रूस और यूक्रेन की जंग और भीषण होती जा रही है। तोप से गोले ही नहीं दागे जा रहे हैं, रूस ने रणभूमि में न्यूक्लियर हथियार उतार दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ-साफ कह दिया है कि रूस को हराने का ख्वाब पालने वाले देश अपने विनाश का बंदोबस्त खुद कर रहे हैं। रूस ऐसा न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। रूस यूक्रेन के खिलाफ विध्वंसक जग छोड़ने वाला है। अब तक दुनिया ने रूस की खतरनाक न्यूक्लियर यार्स देखी है। महाविनाशक सरमत मिसाइल देखी है। न्यूक्लियर पावर लंगोरोद सबमरीन देखी है। रूस के एटमी पावर का ट्रैलर दिखता रहा है। टीयू 160 एम

और किंगडम मिसाइल भी देखी



है। लेकिन अब पुतिन ने अपना न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिखाया है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस का मतलब विनाश का बटन है और यह बटन बस दबने ही वाला है। सामने आए वीडियो में दो ब्रीफकेस नजर आ रहे हैं। एक वह जो बुलेटप्रूफ कैरी करता है जबकि दूसरा न्यूक्लियर ब्रीफकेस बताया जा रहा है। इसे न्यूक्लियर

फुटबॉल कहते हैं। स्टालिनग्राद

जंग की सालगिरह का अवसर था दो सिक्वोरिटी गार्ड के पास ब्रीफकेस नजर आया। पुतिन ने कुछ दूरी पर यह गार्ड्स खड़े थे। पुतिन जब न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ दिखे उन्होंने उसी वक्त पश्चिमी देशों को एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली। पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरे विश्व युद्ध के संकेत दिए। उन्होंने

जासूसी गुब्बारे में था बायो वेपन? भड़के अमेरिका ने रद्द किया ब्लिंकन का चीन दौरा

चीन की एक हरकत से अमेरिका में डर और गुस्सा एक साथ पनपा है। इस हरकत से अमेरिका में तनाव की स्थिति शुरू हो गई है। दरअसल, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने कहा कि एक चीनी जासूसी गुब्बारे को ट्रैक किया गया है। इस गुब्बारे को ऐसे समय में ट्रैक किया गया जब एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक की बीजिंग यात्रा होनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने मीडिया से कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुरोध



और शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने गुब्बारे को नीचे गिराने पर विचार किया। लेकिन ऐसा करने से बहुत से लोगों को खतरा हो सकता है। हाउस ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष ने जासूसी गुब्बारे को लेकर नया दावा करते हुए सनसनी

मचा दी है। हाउस ओवरसाइट के अध्यक्ष जेम्स कॉमर (आर-केंवाई) ने फॉक्स न्यूज को आकस्मिक रूप से सुझाव दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दिखने वाले संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे में घुसाने से ज्वैव हथियार शामिल हो सकते हैं। इस सप्ताह उत्तरी अमेरिका में एक चीनी निगरानी गुब्बारे को देखे जाने के बाद, रिपब्लिकन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर चीन के प्रति उनके प्रशासन की नीति में कथित फ्कमजोरी के लेकर जमकर निशाना साधा। ग्रैंड ओल्ड पार्टी में कुछ ने राष्ट्रपति को

षीजिंग बाइडेन तक कह दिया। इसके साथ ही यह दावा किया कि फ्कम्युनिस्ट चीनघ बाइडेन का छ्दर या सम्मान नहीं करता है। बाइडेन प्रशासन ने सचिव एंटनी ब्लिंकन की चीन की आगामी यात्रा को स्थगित कर दिया है। चीन ने जोर देकर कहा है कि संदिग्ध स्पार्डक्राफ्ट वास्तव में सिर्फ एक ज्वागारिक हवाई पोत है जो धपने नियोजित रेंज से दूर चला गया है। उसका (बीजिंग का) शकिसी भी देश के क्षेत्राधिाकार तथा वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। इस बैलून कांड के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

आरटीई में प्रवेश की समयसीमा निर्धारित

महराजगंज। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत इस बार तीन चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया को समय से पूरा कराया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए समयसारिणी जारी कर दी गई है। पहले चरण में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी छह फरवरी से वेबसाइट झहलदग25. ह्वश्चहास्रध्दश1.द्वदठ पर आवेदन कर लाभ उठाएं। शिक्षा के अधिकाार अधिनियम के तहत दुर्बल वर्ग व अलाभित समूह के बच्चों को भी निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिला कर उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास होता है। उनकी पढ़ाई पर आने वाले व्यय को विभाग की ओर से वहन किया जाता है। अभी तक प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल अथवा मई में प्रारंभ होती थी लेकिन इस बार उसे समय से प्रारंभ कर दिया गया है। पहले चरण के लिए छह से 28 फरवरी तक आवेदन होगा। एक से 10 मार्च तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से आवेदन पत्रों का सत्यापन कर प्रवेश के लिए सहमति दी जाएगी। 12 मार्च को लॉटरी निकलेगी तथा चार अप्रैल को उनका प्रवेश होगा। दूसरे व तीसरे चरण में प्रवेश का कार्यक्रम: दूसरे चरण में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को 14 मार्च से छह अप्रैल के बीच आवेदन करना होगा। सात से 17 अप्रैल के बीच जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सत्यापित कर उस पर सहमति दी जाएगी। 19 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी व 28 अप्रैल को बच्चों का प्रवेश कराया जाएगा। तीसरे चरण में 20 अप्रैल से 12 मई तक आवेदन होगा। 13 मई से 23 जून तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से सत्यापित कर उसे लॉक किया जाएगा। लॉटरी 25 जून को निकलेगी तथा उनका प्रवेश पांच जुलाई को होगा।

सिंचाई विभाग की भूमि पर लगी फसल पर चला ट्रैक्टर

निचलौल। थाना क्षेत्र के झुलनीपुर नहर की पूर्वी पटरी के किनारे चमनगंज पुल के निकट सिंचाई विभाग की भूमि पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर तिलहन की फसल बोई थी। अमर उजाला ने अपने सात जनवरी के अंक में सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा नामक शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद सिंचाई विभाग के जिम्मेदारों की आंख खुली तो अतिक्रमण हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विभाग के जिम्मेदारों ने प्रक्रिया पूरी करने के बाद राजस्व और पुलिस बल की मौजूदगी में उक्त भूमि पर तिलहन की फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर भूमि को खाली करा दिया। सिंचाई खंड प्रथम के सहायक अभियंता ब्रजेश सोनी ने कहा कि एक एकड़ 98 डिस्मिल की भूमि सिंचाई विभाग के नाम से है। इस पर कब्जा कर तिलहन की खेती हुई थी। विभाग की ओर से सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए उक्त भूमि पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर कब्जा हटवाया दिया गया है। इस दौरान एसडीएम राम सजीवन मौर्य, तहसीलदार वाचस्पति सिंह, नायब तहसीलदार नवीन निश्चल त्रिपाठी, उप राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र के अलावा पुलिस टीम मौजूद रही।

जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नौतनवां तहसील सभागार में सम्पन्न

दैनिक बुद्ध का सन्देश
महराजगंज। जिलास्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन



जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में नौतनवां तहसील सभागार में किया गया। समाधान दिवस में कुल 237 मामले आये, जिनमे 45 मामलों को जिलाधिकारी द्वारा मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। जरूरी मामलों में राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जाकर वादों के निस्तारण का निर्देश उपजिलाधिकारी नौतनवां को दिया। जिलाधिकारी ने शेष मामलों को निर्धारित समय- सीमा के भीतर में गुणवत्तापूर्वक ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया। उपजिलाधिकारी नौतनवां ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण गुणवत्तापूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस के उपरांत जिलाधिकारी ने तहसील के सुन्दरीकरण कार्यों को देखा। उन्होंने सुन्दरीकरण कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए तहसील के मैदान को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु संपर्क मार्ग बनाने का निर्देश अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नौतनवां को दिया। संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ, डीडीओ राकेश कुमार पांडेय, एसडीएम नौतनवां दिनेश कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी अनुज सिंह, एआर कोऑर्पेटिव सचिद्र सिंह, डीएओ वीरेंद्र कुमार, प्रोबेशन अधिकारी डीसी त्रिपाठी, डिप्टी आरएमओ विवेक सिंह सहित अन्य जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

घायल ऑटो ड्राइवर व वाहन स्वामी से मिले अरुण बच्चन

गोरखपुर। दिनांक 4 फरवरी दिन शनिवार को भारतीय ऑटो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण बच्चन व राष्ट्रीय महासचिव इरशाद खान ने बीते दिनों पहले तारामण्डल में ऑटो और ट्रैक्टर में हुए भीषण टक्कर मे घायल ऑटो ड्राइवर गोधन यादव एवं ऑटो मालिक चन्द्रकेश यादव का हाल चाल जानने के लिए मंडारियां चौराहा आवास पर पहुंच कर उनके परिवार जनों से मिले। जहां परिवारजनों से उन्हें जानकारी मिली कि दोनों लोग घायल हैं और जिलास्पताल में भर्ती हैं। तत्पश्चात श्री बच्चन एवं उनके पदाधिकारी जिला हास्पिटल पहुंचकर घायल ऑटो ड्राइवर एवं ऑटो मालिक से घटना की जानकारी ली। मौके पर भारतीय ऑटो पार्टी के अध्यक्ष अरुण बच्चन, महासचिव इरशाद खान, उपाध्यक्ष बजरंगी प्रजापति के साथ सुनिल श्रीवास्तव, धनजय भारती, राजा बाबू निषाद, आंकार, संतोष वर्मा और अन्य सदस्य जिला अस्पताल में मौजूद रहे।

वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉ.वाई .सिंह को मिला रूपी आईएमए प्रेसिडेंट एपीसिएशन का अवर्ध

गोरखपुर – जिले के ट्रांसपोर्ट नगर फलमंडी स्थित संगम आई हॉस्पिटल के प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉं वाई सिंह को उनके चिकित्सकीय एवं सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य को देखते हुये यूपी स्टेट आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) ने प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड से सम्मानित किया है। हालाकि इस सम्मान को प्राप्त करने के लिये वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉं वाई सिंह को दिनांक 4 फरवरी को ससम्मान सम्मानित करने के लिये संस्था ने सम्मान सामरोह कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। लेकिन नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉं वाई सिंह को किसी आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण इस सम्मान समारोह में शामिल नही हो पाए। इस सम्मान कार्यक्रम में मैं शामिल नही हो पाया इस बात का मुझे बहुत ही अफसोस रहेगा। डॉं वाई सिंह ने बताया कि जीवन मे कोई भी व्यक्ति धन, दौलत, रुपया पैसा प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि कही भी किसी को किसी प्रकार का सम्मान मिलता है तो यह जीवन का गौरवशाली क्षण होता है और अदमूत खुशी मिलती है। डॉं वाई सिंह को यह सम्मान मिलने से जिले के उनके दोस्तों, रिस्तेदारों , और खासकर जनपद के सभी छोटे ,बड़े, और वरिष्ठ डॉंक्टरों ने खुशी जाहिर किया है।

पूल में टॉप पर मेजबान देवरिया, कड़ी टक्कर में गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को दी शिकस्त

देवरिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही ओपन हॉकी महिला स्टेट प्रतियोगिता में दिन मेजबान देवरिया टीम के नाम पर रहा। प्रतियोगिता की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को कड़ी टक्कर में 2-0 से हराकर पूल ए में नंबर एक पर पहुंच गई। तीन जीत के साथ ही उसके छह अंक हो गए हैं और इसके साथ ही सेमीफाइनल की होड़ में सबसे मजबूत आवेदार हो गई है। खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के तत्वावधान में एवं खेल कार्यालय व जिला हॉकी संघ की देखरेख में चल रही प्रदेश स्तरीय ओपन महिला आमंत्रण प्रतियोगिता में

तीसरे दिन भी रोमांचक मुकाबले हुए। पहला मैच स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर एवं बस्ती के मध्य खेला गया। इसमें टीम के नाम पर रहा। प्रतियोगिता की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को कड़ी टक्कर में 2-0 से हराकर पूल ए में नंबर एक पर पहुंच गई। तीन जीत के साथ ही उसके छह अंक हो गए हैं और इसके साथ ही सेमीफाइनल की होड़ में सबसे मजबूत आवेदार हो गई है। खेल निदेशालय व उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के तत्वावधान में एवं खेल कार्यालय व जिला हॉकी संघ की देखरेख में चल रही प्रदेश स्तरीय ओपन महिला आमंत्रण प्रतियोगिता में

खेला गया। इसमें झांसी ने 6- 0 से जीत दर्ज की। इसके पूर्व मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच प्रारंभ कराया। मैच में झांसी की तरफ से 16 वें, 33वें व 58वें मिनट में मोहिनी ने लगातार तीन गोल किए। पांचवें मिनट में काजल, 18वें मिनट में नाजिया व 20वें मिनट में जोया खान ने गोल कर टीम को जीत दिलाई। तीसरा मैच सहारनपुर बनाम अयोध्या के मध्य खेला गया। जिसमें कड़ी टक्कर के बावजूद दोनों ही टीम कोई गोल नहीं कर पाईं। तीसरे मैच के मुख्य अतिथि एडीएम वित्त व राजस्व

नागेंद्र कुमार सिंह रहे। चौथा मैच लखनऊ छात्रावास और मऊ के बीच खेला गया, जिसमें लखनऊ छात्रावास ने 2-1 के अंतर से रोमांचक जीत हासिल की। चौथे मैच की मुख्य अतिथि व्यवसायी रीना कंडिया ने खिलाड़ियों से परिचय कर खेल शुरू कराया। लखनऊ छात्रावास की तरफ से 16 वें मिनट में मान्या व 36 वें मिनट में श्रद्धा ने गोल किया, मऊ की ओर से एकमात्र गोल 17 वें मिनट में नीलम ने किया। पांचवां मैच देवरिया और स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर के बीच खेला गया। बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में देवरिया ने 2- 0 की से जीत हासिल की। इसके पूर्व मुख्य अतिथि जिला पंचायत

अध्यक्ष पंगरीश चंद तिवारी ने खिलाड़ियों से परिचय किया। मैच के दौरान दोनों टीमों एक दूसरे पर हावी होकर खेली और 15-15 मिनट में दोनों हॉफ में कोई गोल नहीं हुआ। 35वें मिनट में देवरिया की पलक ने व 45 वें मिनट में साक्षी कुमारी ने गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। उधर छठवां मैच बस्ती बनाम अयोध्या के बीच खेला गया। जिसमें अयोध्या की टीम ने 1-0 से बाजी अपने नाम की। इस मैच के मुख्य अतिथि जिला ओलंपिक संघ के सचिव अजय जायसवाल अज्जू रहे। अयोध्या की तरफ से एकमात्र गोल 57वें मिनट में आकांक्षा ने किया।

प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग के लिए पांच से करें आवेदन

देवरिया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत सिविल सेवा, नीट, जेईई, एनडीए, सीडीएस, एसएससी एवं यूपी टीईटी व सीटीईटी की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु निरुशुल्क कोचिंग के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया रविवार से शुरू हो जाएगी। विद्यार्थी 10 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसवार लाल बहादुर ने दी। उन्होंने बताया कि जेईई-नीट की प्रवेश परीक्षा की तिथि 25 मार्च सुबह 11 बजे से 01.30 बजे तक, एनडीए-सीडीएस एवं यूपीएससी-यूपीपीएससी की प्रवेश परीक्षा की तिथि 26 मार्च, एसएससी की प्रवेश परीक्षा की तिथि 27 मार्च तथा सीटीईटी-यूपीटीईटी की प्रवेश

परीक्षा की तिथि 28 मार्च सुबह 11 बजे से 01 बजे तक निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने की अनुमानित तिथि 10 अप्रैल एवं कोचिंग सत्र संचालन की अनुमानित तिथि 17 अप्रैल को निर्धारित है। 739408999 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं छात्र- उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन से प्राप्त किए जा सकते हैं। योजना की अधिक जानकारी के लिए कनिष्ठ सहायक संजय मिश्र के मोबाइल नंबर 7394089991 पर कार्यालय अवधि में (10 से सायं 05 बजे तक) जानकारी ली जा सकती है। आवेदक अपना आवेदन पत्र जमा करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन की समस्त प्रक्रिया एवं कक्षाएं पूर्णतः निरुशुल्क हैं।

यह है पात्रता: मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आवेदन की पात्रता के संबंध में उन्होंने बताया कि जेईई-नीट के लिए कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत अथवा उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र पात्र होंगे। यूपीएससी-यूपीपीएससी की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र अथवा स्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होंगे। एनडीए की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु कक्षा 12 उत्तीर्ण विज्ञान वर्ग के छात्र पात्र होंगे। सीडीएस के प्रशिक्षण हेतु स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र अथवा स्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होंगे। एसएससी की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु कक्षा 12 उत्तीर्ण छात्र पात्र होंगे। यूपी टीईटी-सीटीईटी की परीक्षा के प्रशिक्षण हेतु शिक्षा स्नातक (डीएलएड/ बीएड) अध्ययनरत एवं उत्तीर्ण छात्र पात्र होंगे।

पंजाब में युवक की मौत, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल

दैनिक बुद्ध का सन्देश
महराजगंज। रोजी-रोटी की तलाश में घर से बाहर गया युवक को क्या पता फिर वह घर पर लौट कर वापस नहीं आया। मामला सिंदुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पतरंगवा टोला शितलापुर का है जहां वीरेंद्र पुत्र रामसनेही उम्र करीब 30 बरस अपने चार बहनों में इकलौता भाई था। परिवार की जिम्मेदारी को संभालते हुए रोजी-रोटी की तलाश में पंजाब के शहर लुडियाना में गया था। वही मेहनत मजदूरी करके भरण पोषण एवं परिवार का आजीविका चला रहा था लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इस बात की जानकारी होते ही परिवारी जनों एवं आस-पड़ोस के लोगों में कोहराम मच गया और घर के लोग रो-रोकर विशुद्ध हो गए। विदित हो कि वीरेंद्र करीब 8 माह पूर्व पंजाब के लुधियाना शहर में नौकरी की तलाश में गया था और वही बतौर लेबर का काम करके परिवार की आजीविका चला रहा था। वीरेंद्र और उसकी बहनों गुड़िया,उमा की शादी नहीं हुई है जबकि रुना विवाहित है। शनिवार को सुबह करीब 8:00 बजे के आसपास फोन करके किसी युवक ने बताया कि वीरेंद्र की मौत पंजाब में हो गई है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जहां विरेन्द्र काम करता था उस ठेकेदार का नाम सुनील चौहान है जो स्थानीय थाना क्षेत्र के मोतीपुर का निवासी है जहां वीरेंद्र अपनी मौसी के लड़के रविंद्र पुत्र संतराज पता उपरोक्त के साथ रहकर काम करता था। परिजनों ने यह भी बताया कि घटना के बाद से रविंद्र और ठेकेदार का फोन सिवच ऑफ आ रहा है कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है बहरहाल मामला संदिग्ध लग रहा है जांच का विषय है।

संपूर्ण समाधान तहसील दिवस में सभी अधिकारी रहे मौजूद

दैनिक बुद्ध का सन्देश
गोरखपुर। संपूर्ण समाधान तहसील दिवस सदर तहसील में जिला अधिकारी कृष्ण करुणेश,एसएसपी डॉं गौरव ग़ोवर की अध्यक्षता में आए हुए



फरियादियों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेटएरएसडीएम सदर नेहा बंधु,सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह,नायब तहसीलदार वशिष्ठ वर्मा नायब तहसीलदार विकास कुमार नायब तहसीलदार अरविंद पांडेय नायब तहसीलदार प्रमोद श्रीवास्तव सहित संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

डीएम और एसपी ने क्षेत्राधिकारी निचलौल कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष का किया उद्घाटन

दैनिक बुद्ध का सन्देश
महराजगंज। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉं.



कौस्तुभ ने क्षेत्राधिकारी निचलौल कार्यालय में अतिरिक्त कक्ष का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्राधिकारी कार्यालय में सुविधाओं के विकास से फरियादियों के लिए बेहतर माहौल बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कार्यालय के बेहतर होने से कर्मियों के मनोविज्ञान पर भी असर होता है और उनकी कार्यशैली बेहतर होती है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि क्षेत्राधिकारी कार्यालय में जनसुविधाओं के विकास से जनता को सहूलियत मिलेगी। उद्घाटन के लिए क्षेत्राधिकारी निचलौल ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आमजन के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

देवरिया। सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत अगस्तपार में आयोजित चौपाल में सीडीओ पहुंचे। चौपाल में सीडीओ के सामने 42 आवेदन आए। किसी ने नाली दुरुस्त कराने की मांग की तो किसी ने जलापूर्ति के लिए बिछाई गई पाइप लाइन के संबंध में शिकायत की। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि क्षेत्र में बनाई गई नाली बनने के बाद से ही टूटने लगी है। इस सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश दिया। सीडीओ रवींद्र कुमार से अगस्तपार गांव के देवानन्द तिवारी, गब्बू लाल, गनेश तिवारी, मुनेश्वर, कृष्णावती, आशा देवी, सोनम देवी, मगरू, वेदव्यास यादव, संजू, लीलवती, चन्द्रशेखर, रावडी देवी, कुन्ती देवी, मीना देवी रतन तिवारी, सावित्री आदि ने विभिन्न शिकायतों को दूर कराने की मांग की। इनमें राशनकार्ड, प्रधानमंत्री आवास, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, चक्ररोड आदि के मामले

शामिल थे। सीडीओ ने ग्रामीणों की बातों को ध्यान से सुनकर कहा कि सभी शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की सभी योजनाओं को पात्र व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचाएं। इसमें कोताही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाइपों की टेस्टिंग कराने का सीडीओ ने दिया निर्देश

गांव के कमलेश तिवारी ने अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में हो रहे नाली निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं है। निर्माण के बाद ही नाली टूटने लगी है। जल निगम द्वारा ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई हेतु पाइप डाली गई है परंतु गड्डे को ठीक तरीके से बंद नहीं किया गया है। इससे ग्रामवासियों को आने-जाने में परेशानी होती है। सीडीओ ने इस बाबत ग्राम सचिव को जल्द से जल्द नाली निर्माण कराने तथा जल निगम की कार्यदायी संस्था से संपर्क कर

जल निगम द्वारा डाली गई पाइपों को ठीक कराकर टेस्टिंग का निर्देश दिया। वहीं धर्मनंदा तिवारी, प्रियंका, विद्यावती, रोहित कुमार आदि अन्य ग्रामवासियों ने हरिजन बस्ती में नाली निर्माण पूर्ण न होने तथा पानी निकासी न होने की शिकायत की। सीडीओ ने ग्राम सचिव व लेखपाल को निर्देशित किया गया कि नाली के निर्माण तथा पानी निकासी सुनिश्चित कराएं। देवानन्द तिवारी ने शिकायत की गई कि ग्राम सभा की खलिहान की जमीन पर ग्राम पंचायत के व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिसको खाली कराना आवश्यक है। सीडीओ ने लेखपाल को खलिहान का सीमांकन कर कब्जामुक्त कराने का निर्देश दिया। चौपाल में खण्ड विकास अधिकारी सदर, सहायक विकास अधिकारी (पं०), देवरिया सदर, ग्राम सचिव राकेश कुमार, ग्राम प्रधान चिन्ता त्रिपाठी, लेखपाल, ऋषिकेश पाण्डेय, पंचायत सहायक, दामिनी त्रिपाठी एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित थे।

चौरीचौरा स्मृति दिवस पर हीमोफीलिया वेलफेयर सोसायटी गोरखपुर के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता को विधायक सरवन निषाद ने किया सम्मानित

गोरखपुर। चौरीचौरा प्रतिशोध दिवस



के अवसर पर सामाजिक संस्था पंडित महामना फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा चौरीचौरा स्मारक स्थल में शहीद वीर क्रांतिकारियों को समर्पित सांस्कृतिक महोत्सव व सम्मान समारोह में हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शैलेश गुप्ता को उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिये सम्मान पत्र व स्मृतिचिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि चौरीचौरा विधायक सरवन निषाद एवं विशिष्ट अतिथि गोरखपुर टीएसआई रामकृष्ण

गुप्ता, सुनीता गुप्ता चैयरमैन, मानवेंद्र यादव ब्लाक प्रमुख, मुन्ना भुज समाजसेवी, सन्नी जायसवाल समाजसेवी, डॉ. दिनेशमणि त्रिपाठी (प्र. ानाचार्य) ने शैलेश गुप्ता खुद हीमोफीलिया मरीज होते हुए भी दूसरों मरीज के सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते है अपने जैसे मरीजों के जिंदगी मे रेशनी डालते हैं उनका मनोबल बढ़ाते है ईलाज से सम्बंधित जो भी सुविधा होती उसको उपलब्ध करवाने कि कोशिश

करते है, आर्थिक मदद, सहित अन्य सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित किया। अतिथियों ने आयोजित इस वृहद कार्यक्रम के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुये कहा कि इस तरह के आयोजन व सामाजिक कार्य समाज को प्रेरणा देते हुये सन्देश देने का कार्य करते हैं जिससे बलिदानी वीर क्रांतिकारियों के सपनों को सच करते हुये समाज और राष्ट्र को मजबूत व समृद्धशाली बनाने में सहयोग मिलता है। महोत्सव में अन्य सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समाजसेवियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा रितु शाही व संवाहन कार्यक्रम संयोजक सचिन गौरी वर्मा ने किया। साथ ही सचिन गौरी वर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान हजारों छात्र छात्राओं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

दुष्कर्म के दोषी गोविंद उर्फ कल्लू को 15 वर्ष की कैद, 80 हजार रुपये अर्थदंड

दैनिक बुद्ध का सन्देश सोनभद्र। साढ़े 10 वर्ष पूर्व 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी गोविंद उर्फ कल्लू को 15 वर्ष की कैद व 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अपहरण के दोषी शिवगुलाम व सरोज को दोषसिद्ध पाकर 7-7 वर्ष की कैद व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि

को लेकर राबर्ट्सगंज में अपने साली के यहां ले गया और रात भर रखा था। सुबह राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मडरा गांव निवासी शिवगुलाम पुत्र रामजियावन को गोविंद ने बुलाया और उसके साथ रेलवे स्टेशन राबर्ट्सगंज ले गया और 5 हजार रुपये शिवगुलाम को देकर भेज दिया। उसे ट्रेन से विध्याचल ले गया और कमरा लेकर दो दिन रखा था। इस दौरान उसकी बेटी के साथ चार बार जबरन बलात्कार किया है। बेटी भय की वजह से कुछ नहीं कर पाई। इसकी जानकारी होने पर थाने को सूचना दिया, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब सोनभद्र एसपी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब न्यायालय में प्रार्थना

पत्र दिया था। कोर्ट के आदेश पर राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 7 नवंबर 2012 को एफ आई आर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दुष्कर्म के दोषी गोविंद उर्फ कल्लू को 15 वर्ष की कैद व 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अपहरण के दोषी शिवगुलाम व सरोज को 7-7 वर्ष की कैद व 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार पाठक ने बहस की।

ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज, 7 फरवरी को कोर्ट में तलब

दैनिक बुद्ध का सन्देश सोनभद्र। साढ़े पांच माह से 12 चक्का ट्रक के कल पुर्जे गायब होने के संबंध में बार-बार आख्या मांगने के बावजूद भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में वृहस्पतिवार को सीजेएम सूरज मिश्रा की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोनभद्र के ज्येष्ठ खान अधिकारी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कराते हुए सम्मन के जरिए 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं राबर्ट्सगंज कोतवाल से भी 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर वाहन के बाबत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश वाहन मालिक कृष्ण कुमार सिंह पुत्र इंद्रभूषण सिंह निवासी आमडौह हिनाता, थाना राबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र की ओर से अधिवक्ता विकास शाक्य के जरिए दाखिल मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है। वाहन मालिक ने 23 अगस्त 2022 को कोर्ट में अधिवक्ता के जरिए दाखिल प्रार्थना पत्र में अवगत कराया है कि वह 12 चक्का ट्रक संख्या यूपी 64टी-5127 का पंजीकृत स्वामी है। उसके वाहन का संचालन राजकुमार पुत्र रामप्यारे निवासी निगाई, थाना कोन, जिला सोनभद्र द्वारा 26 जनवरी 2020 को करते समय गिटी लोड कर परिवहन करते समय लोढ़ी टोल प्लाजा के पास एडीएम सदर व ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र की संयुक्त टीम द्वारा वाहन को निरुद्ध किया गया था। जिसके संबंध में वाहन मालिक व चालक के विरुद्ध खनिज मुहरिरे सुमित श्रीवास्तव के जरिए मुकदमा दर्ज कराया गया था। 19 मार्च 2021

कोर्ट में दाखिल किया गया जमानत हो गई है तथा वाहन मालिक की जमानत भी 18 जुलाई 2022 को सत्र न्यायाधीश के आदेश पर हुई है। वाहन मालिक ने अपने वाहन को अवमुक्त किए जाने के बाबत प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने राबर्ट्सगंज कोतवाल को खनिज संपदा उतरवाकर वाहन को अवमुक्त करने का आदेश 18 अगस्त 2022 को दिया था। 19 व 20 अगस्त को सुपुर्दगी के लिए कोतवाली में बुलाया गया। कागजात पर हस्ताक्षर बनाने से पहले वाहन की जांच करने की मांग की गई तो होमगार्ड के साथ भेजा गया। जब वाहन को देखा तो उसके कल पुर्जे गायब थे। जबकि सीज करते समय वाहन का फोटो खींचा गया था जिसमें वाहन ठीक था। जिसके फोटोग्राफ भी कोर्ट में दाखिल किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता विकास शाक्य के तर्कों को सुनने व प्रतावली का अवलोकन करने पर बार-बार वाहन के कल पुर्जे गायब होने के बाबत आख्या मांगने पर भी ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र द्वारा कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जिसकी वजह से प्रतावली का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज कराते हुए 7 फरवरी को सम्मन के जरिए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। वहीं राबर्ट्सगंज कोतवाल को भी 7 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होकर वाहन के बाबत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

दो दिवसीय 38 वीं अंतरराज्यीय बक्षलीबाल प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन

दैनिक बुद्ध का सन्देश सोनभद्र। राजा चण्डोल बनवासी सेवा समिति के तत्वावधान में दो दिवसीय 38 वीं अंतरराज्यीय बॉलीबाल प्रतियोगिता का शनिवार को उद्घाटन हुआ। इस दौरान उद्घाटन मैच राजा चण्डोल



इंटरमीडिएट कालेज लिलासी और लिलासी लायन्स के बीच खेला गया। मैच को सेट में ही लिलासी लायन्स ने 31x26 से जीत लिया। इससे पूर्व राजा चण्डोल बनवासी सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित 38 वीं अंतरराज्यीय बॉलीबाल प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि आर्यावर्त बैंक लिलासी के शाखा प्रबंधक कमलकुमार पातर ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बनवासी इलाके में इस तरह के आयोजन काफी लाभदायक है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आती हैं। कहा खेलने वाले युवाओं का शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। उन्होंने 38 वर्षों से हो रहे इस आयोजन को लेकर आयोजन समिति को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि शाखा प्रबंधक जरहा अनिल कुमार मौर्य, अक्षय कुमार, आनन्द प्रकाश, विजय कुमार आर्या, शशांक कुमार गुप्ता, रामनरेश जायसवाल, बफिलाल, जयंत प्रसाद, डॉ. लखनराम जंगली, रविकांत गुप्ता, आशीष गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद, गिरिजाशंकर यादव समेत छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड व प्रदेश की कुल 30 टीम के लोगों ने प्रतिभाग किया।

बुद्ध का संदेश

(हिन्दी दैनिक समाचार पत्र)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती पुष्पा शर्मा द्वारा बुद्धा प्रिन्टर्स, ज्योति नगर मधुकरपुर, निकट-हीरो होण्डा एजेन्सी, जनपद-सिद्धार्थनगर (उ०प्र०) 272207 से मुद्रित एवं प्रकाशित।

आर.एन.आई. नं.-UPHIN/2012/49458

संस्थापक स्व. के.सी. शर्मा सम्पादक राजेश कुमार शर्मा

9415163471, 9453824459

दैनिक बुद्ध का संदेश 9795951917, 9415163471 @budhakaasandesh budhakaasandeshnews@gmail.com www.budhakaasandesh.com

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट. के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद जनपद-सिद्धार्थनगर न्यायालय के अधीन ही मान्य होगा।

तीनों तहसीलों में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, 136 में 10 का निस्तारण

राज्यमंत्री, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान दादरी तहसील में पहुंचकर तहसील संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुये सुनी जनता की शिकायतों के द्वारा मौके पर ही सुनिश्चित किया गया। तहसील समाधान गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश



सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जनता की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित गति के साथ निस्तारण कराने के उद्देश्य से आज जनपद की तीनों तहसीलों में तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। जनपद की तीनों तहसीलों में कुल 136 शिकायतें दर्ज हुईं, जिसके सापेक्ष 10 शिकायतों का निराकरण विभागीय अधिकारियों

जनपद सिद्धार्थनगर के महत्वपूर्ण नम्बर

जिलाधिकारी	मो:-- 9454417530
मुख्य विकास अधिकारी	मो:-- 9454464749
एस डीएम नौगढ़	मो:-- 9454415936
एस डीएम बांसी	मो:-- 9454415937
एस डीएम डुमरियागंज	मो:-- 9454415939
एस डीएम इटवा	मो:-- 9454415939
एस डीएम शोहरतगढ़	मो:-- 9454415940
पुलिस अधीक्षक	मो:-- 9454400305
थाना मोहाना	मो:-- 9454404239
थाना जोगिया उदयपुर	मो:-- 9454404235
थाना गोलौरा	मो:-- 9454404233
थाना पथरा बाजार	मो:-- 9454404240
थाना त्रिलोकपुर	मो:-- 9454404243
थाना उसका बाजार	मो:-- 9454404244

राष्ट्रीय दैनिक बुद्ध का संदेश


थाना शोहरतगढ़	मो:-- 9454404241
थाना खेसरहा	मो:-- 9454404236
थाना इटवा	मो:-- 9454404234
थाना चिल्हिया	मो:-- 9454404229
थाना देवरुआ	मो:-- 9454404230
थाना भवानीगंज	मो:-- 9454404228
थाना मिश्रौलिया	मो:-- 9454404238
थाना सि०नगर	मो:-- 9454404242
थाना डुमरियागंज	मो:-- 9454404232
थाना लोटन	मो:-- 9454404237
महिला थाना	मो:-- 9454404891



पर ही सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर मा० मंत्री ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एवं शासन गंभीर है। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में जिन विभागों से संबंधित जनता की शिकायतें दर्ज हो रही हैं। सभी संबंधित अधिकारीगण गंभीरता के साथ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें और मौके पर जाकर संबंधी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित कराएं ताकि संबंधित पोर्टल पर शिकायतों को ऑनलाइन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को भी संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा निस्तारण के दौरान उपस्थित रखा जाए ताकि सभी शिकायतों का निराकरण गुणवत्ता परक रूप से सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज शिकायतों की मानिट्रिंग उत्तर प्रदेश शासन स्तर से सुनिश्चित

अपराधिक गतिविधि बर्दाश्त नहीं- पुलिस अधीक्षक डॉ० अजय पाल शर्मा

दैनिक बुद्ध का सन्देश जौनपुर। जनपद में पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने पश्चात डॉ० अजय पाल शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने के साथ ही अपराध और अपराधियों से सख्ती के साथ निपटते हुए शान्ति व्यवस्था कायम रखी जायेगी। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा शासन की मंशा के अनुरूप अपराध पर जोरो टालरेंस के तहत काम करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जायेगा। शान्ति व्यवस्था और कानून व्यवस्था खराब करने पर बख्शा नहीं जायेगा। जनपद में किसी भी तरह की अपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए वार्ता करके उसे दुरुस्त किया जायेगा। कहा कि हमें अपराधिक तत्वों की सूचनायें दे गोपनीय रखते हुए कार्यवाई होगी। ज्ञात हो कि 2011 बैच के आईपीएस पंजाब स्थित लुधियाना के मूल निवासी पुलिस अधीक्षक डॉ० अजय पाल शर्मा ट्रेनिंग के समय एएसपी सहारनपुर, एएसपी मथुरा, एएसपी सिटी गाजियाबाद, एएसपी हाथरस, शामिल, गौतम बुद्ध नगर, पुलिस अधीक्षक 112 डायल के बाद अब पुलिस अधीक्षक जौनपुर के पद पर तैनाती हुई हैं।



जागरूकता ही बचाव: डॉ. सुब्रत बनर्जी

दैनिक बुद्ध का सन्देश सोनभद्र। डीएवी पब्लिक स्कूल, राबर्ट्सगंज केंसर के बारे में



बच्चों को जागरूक किया गया। प्रार्थना सभा के दौरान एनजीओ 'केयरिंग सोल्स' लखनऊ के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुब्रत बनर्जी ने बच्चों को जागरूक करते हुए केंसर के कारण एवं प्रभावों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंसर में हमारे शरीर के कुछ सेल्स अनियंत्रित हो जाते हैं जो सामान्य सेल्स को नष्ट करने लगते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम जो भी खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियाँ आदि लें तो अच्छी तरह धोकर ही सेवन करें। नियमित रूप से विटामिन डी का सेवन करें। अस्वस्थ महसूस होने पर चिकित्सक से परामर्श लें। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी दिनचर्या के सम्बंध में जागरूक रहें तो इससे बचाव हो सकता है। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रणजीत वर्मा एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे।

02 लाख रुपये के हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

दैनिक बुद्ध का सन्देश करमा/सोनभद्र पुलिस अधीक्षक डॉ० यशवीर सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना करमा पुलिस द्वारा 01 नफर हेरोइन तस्कर राहुल शर्मा पुत्र राजेश शर्मा निवासी ग्राम खैराही थाना करमा जनपद सोनभद्र के पास से 20 ग्राम नजायज हेरोइन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना करमा पर मु०अ०स०-8x2023 धारा 8x21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाई की गयी। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाध्यक्ष राजेश सिंह उपनिरीक्षक रुपेश सिंह कास्टेबल मनीराम शामिल रहे।

जनपद के समस्त थानों में गठित एंटीरोमियो टीम प्रभारियों के साथ की गयी गोष्ठी

गोष्ठी में एंटीरोमियो चेकिंग के संबंध में दिये गये आवश्यक निर्देश

दैनिक बुद्ध का सन्देश सोनभद्र। पुलिस लाइन चुर्क में क्षेत्राधिकारी सदरधमहिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के नेतृत्व में जनपद के समस्त थानों में गठित एंटीरोमियो टीम प्रभारियों के साथ मीटिंग की गयी। जिसमें एंटीरोमियो चेकिंग के सम्बंध में हाट स्पॉट चिन्हित करने, थाना क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों/महिलाओं से बात चीत करते हुए समस्याओं को सुना जाए वा निस्तारण किये जाने, एंटीरोमियो चेकिंग में प्रतिदिन रवानगी करते हुए चेकिंग की फोटो ग्रुप में प्रेषित करने, सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत महिलाओं/बलिकाओं को जागरूक करने तथा बेवजह घूमने वाले मनचलो/सोहदों की चेकिंग करने हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आज

दैनिक बुद्ध का सन्देश उसका बाजार। कस्बा के स्टेट बैंक के सामने स्थित गाँधी चबूतरा मैदान में उग्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को है। यह जानकारी व्यापार मण्डल के संरक्षक गोपाल अग्रहरि ने दी है। उन्होंने सभी व्यापारियों से समारोह में उपस्थित रहने की अपील की है।

बगीचे को साफ रखने के लिए इस्तेमाल करें ये 5 टिप्स



घर पर एक अच्छा और सुंदर बगीचा बनाए रखना पर्यावरण के लिए काफी अच्छा होता है। इसके साथ ही यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। दिनभर की थकान के बाद बगीचे में आराम से बैठकर अपने सुंदर पौधों को फलते-फूलते देखना काफी शानदार दृश्य है, जिससे आप काफी सुकून महसूस करते हैं। आइए आज आपको अपने बगीचे को साफ रखने के लिए पांच गार्डनिंग टिप्स बताते हैं, जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए।

बगीचे से जंगली घास को निकाल दें

आमतौर पर बगीचों में जंगली घास हो जाती है, जो कीटों के समान होती है। यह बीज तक पहुंचकर पौधों को खराब कर सकती है, इसलिए अपने बगीचे को अच्छा रखने के लिए सभी खरपतवारों को साफ करना जरूरी है। हालांकि, खरपतवारों को मारने के लिए रसायनों का इस्तेमाल अक्सर मिट्टी को भी प्रभावित कर सकता है। इस वजह से खरपतवारों को हाथ से या फिर कुदाल का इस्तेमाल करके निकालना सबसे अच्छा तरीका है।

नियमित रूप से घास काटें और पानी दें

अपने बगीचे को हरा-भरा बनाने और ताजी स्थिति में रखने के लिए घास और पौधों को पानी देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मौसम के आधार पर पौधों को रोजाना और घास को सप्ताह में दो-चार बार पानी दें। इसके अलावा जब घास पांच-छह सेंटीमीटर ऊंचाई तक बढ़ जाए तो अपने बगीचे की कटाई जरूर करें। नियमित घास काटने से घास भी समय के साथ मजबूत और स्वस्थ हो जाती है।

गमलों और पत्तियों को रोजाना साफ करें

यदि आप अपने बगीचे की सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं तो गमलों और पत्तियों पर लगी धूल और मिट्टी को साफ करने की आदत डाल लें। पत्तियों से धूल साफ करने से वे ज्यादा फ्रेश दिखाई देंगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि पौधों को अधिक रोशनी मिलती रहे। याद रखें कि पत्तियों को साफ करने के लिए हमेशा एक मुलायम कपड़े का इस्तेमाल करें और गमलों को साफ करके पानी से धो दें।

सूखी पत्तियों को हटाकर झाड़ियों की छंटाई करें: बगीचे को साफ-सुथरा दिखाने के लिए समय-समय पर सूखी और गिरी हुई पत्तियों को हटाना जरूरी होता है। ये गिरी हुई पत्तियां अक्सर बगीचे में सड़ जाती हैं और सतह को फिसलने वाली बना सकती हैं। इन्हें साफ करने के लिए आप बगीचे की झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बगीचे के पौधों के अन्य हिस्सों को खराब होने से रोकने के लिए सूखी झाड़ियों और खराब पत्तियों की कटाई-छंटाई करना भी जरूरी होता है।

बगीचे के फर्नीचर और सजावट को साफ करें: बगीचे में मौजूद टेबल, कुर्सियां या लाउंजर जैसे फर्नीचर और सजावट की चीजों में गंदगी, नमी, फफूंदी और धूल जम जाती है। इसकी वजह से बगीचे बेकार और गंदे दिखने लगते हैं। बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए हफ्ते में एक बार गीले कपड़े से इनकी सफाई करना जरूरी होता है। इसके अलावा साफ और शुद्ध वातावरण बनाए रखने के लिए टूटे या घिसे-पिटे फर्नीचर की मरम्मत या उसे बदलवाना जरूर याद रखें।

फेदर आउटफिट में राय लक्ष्मी ने लूटी वाहवाही, फोटो देखकर बेकाबू हुए फैंस

साउथ एक्ट्रेस राय लक्ष्मी अपनी बोल्डनेस और हॉट अदाओं से फैंस के दिलों पर कहर बरपाने का हुनर बखूबी जानती हैं। उनकी कातिलाना तस्वीरों और दिलकश अंदाज फैंस के सिर



आंखों पर चढ़कर बोलता है। वहीं, एक्ट्रेस राय लक्ष्मी की लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने ऑरेंज कलर की थाई हाई स्लिट फेदर ड्रेस को पहन रखा है, जिसमें वो बेहद ही स्टनिंग लग रही हैं। न्यूड मेकअप और लाइट कर्ल हेयर स्टाइल में एक्ट्रेस राय लक्ष्मी गजब की बला लग रही हैं। वन साइड शोल्डर आउटफिट में राय लक्ष्मी गजब की बला लग रही हैं, उनकी तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं। क्यूट स्माइल और उनकी खूबसूरती किसी की भी दिल की धड़कन बढ़ा दें। वहीं, अदाकारा राय लक्ष्मी की लेटेस्ट तस्वीरें चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। साउथ एक्ट्रेस राय लक्ष्मी अपने बिकिनी लुक के लिए काफी फेमस हैं। उनके इस लुक को फैंस काफी पसंद करते हैं। अदाकारा राय लक्ष्मी अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरती रहती हैं। एक्ट्रेस राय लक्ष्मी की इन तस्वीरों को देखकर फैंस यही कह रहे हैं कि कंचना स्तार राई लक्ष्मी की हर अदा कातिलाना है। राय लक्ष्मी का नाम पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी जुड़ चुका है। एक्ट्रेस राय लक्ष्मी फिल्म जूली के सीक्वल जूली 2 में काफी बोल्ड सीन दिए थे।

सिद्धार्थनगर का सबसे बड़ा प्रिंटिंग पब्लिकेशन हाउस...
बुद्ध पब्लिकेशन
 ऑफसेट एण्ड प्रिन्टर्स

नी.एस.टी. मिल बुक/फार्म • कार्यालय टिकट • स्कूल कार्ड/फार्म/डायरी • फार्मलेट
 • कलर पीटर्स • कलर प्रिंटिंग कार्ड • ऑनर लेटर पैड • बैंक फार्म
 • टिकट • हीरो एजेंसी • जीवद न्यूफरपूर • सिद्धार्थनगर (उ.प्र.)

☎ 8795951917, 9453824459

अजित कुमार की थुनिवु 10 फरवरी को ओटीटी पर!



हाल ही में पोंगल के अवसर पर 11 जनवरी को दक्षिण भारत में थलापति विजय की वरिसु के साथ ब्लॉकबस्टर टकराव झेलने वाली अभिनेता अजित कुमार की थुनिवु के बारे में कहा जा रहा है कि यह आगामी माह ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने जा रही है। गौरतलब है कि अजित कुमार की यह फिल्म धरेंद्रू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कारोबार करने में सफल रही है और वैश्विक स्तर पर इसने 200 करोड़ का कारोबार किया है। वरिसु से टकराव के बावजूद दर्शकों ने इस फिल्म को हाथों-हाथ लिया और यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। थुनिवु अब ओटीटी पर आने वाली है। प्राप्त समाचारों के अनुसार फिल्म फरवरी में नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी। अगर ऐसा होता है तो यह थिएट्रिकल रिलीज के करीब एक महीने बाद ओटीटी पर आएगी। थुनिवु एक डकैती-थ्रिलर है, जिसका निर्देशन एच विनोथ ने किया है। इसे बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है।

थुनिवु, वलिमै के बाद अजित कुमार की पहली रिलीज कथित तौर पर 10 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिल्मों के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के एक महीने बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना कोई आश्चर्य व नई बात नहीं है। थुनिवु की ओटीटी रिलीज किसी भी तरह से अजित के प्रशंसकों के लिए एक बड़ा क्षण होने की उम्मीद है।

थुनिवु एक एक्शन-थ्रिलर है जिसमें अजीत कुमार एक नए अवतार में हैं। फिल्म में अभिनेता ग्रे रंगों में नजर आए हैं। थुनिवु में मंजू वारियर ने नायिका की भूमिका निभाई है। धनुष के साथ अपनी पहली तमिल फिल्म असुरन (2019) के बाद यह मलयालम अभिनेत्री की दूसरी तमिल फिल्म है। थुनिवु बोनी कपूर द्वारा निर्मित है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने निकोडा पारवर्डी और वलिमै का निर्माण भी अजित कुमार के साथ किया था। यह दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं।

त्रिदेव फेम ओए ओए गर्ल सोनम की बॉलीवुड में वापसी

90 के दशक में दिलों पर राज करने वाली त्रिदेव की ओए ओए गर्ल सोनम भारतीय सिनेमा में दमदार वापसी करने के लिए



पूरी तरह तैयार है। अपने वापस आने के बारे में बात करते हुए वह कहती हैं, मुझे दुनिया भर में तीन दशकों तक रहने के बाद वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इंडस्ट्री ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया है और यह यहां से और बेहतर हो गया है। मैं स्थापित और साथ-साथ नए जमाने के निर्देशकों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। भारतीय सिनेमा ने दुनिया भर में देश को गौरवान्वित करते हुए गतिशीलता को बदल दिया है। ओटीटी स्पेस विश्व स्तर पर फलफूल रहा है और मैं सिनेमा के साथ-साथ इसे एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक हूँ। उल्लेखनीय कि सोनम को इंडस्ट्री में यश चोपड़ा द्वारा पेश किया गया था और 1988 में मल्टी-स्टार एक्शन फिल्म श्विजयच के साथ अपना करियर स्थगित कर दिया था। अभिनेत्री को फिल्म शत्रुदेवच से प्रसिद्धि मिली और इसी फिल्म का एक गाना शोए ओएओएव लोगो के बीच काफी मशहूर हुआ। ऐसा लगता है, वह जल्द ही वह करने के लिए वापस आ जाएगी जो वह सबसे अच्छा करती है जू यानी मनोरंजन!

लाल पत्ता गोभी को डाइट में करें शामिल, मिलेंगे ये 5 प्रमुख फायदे



पत्ता गोभी की विभिन्न किस्मों में शामिल लाल पत्ता गोभी (जिसे बैंगनी गोभी भी कहा जाता है) को पोषक तत्वों के मामले में सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। एंथोसायनिन नामक फ्लेवोनोइड और एंटी-ऑक्सीडेंट की उपस्थिति के कारण इसमें लाल-बैंगनी रंग होता है, वहीं यह डाइटरी फाइबर, विटामिन- सी और विटामिन- के का समृद्ध स्रोत है। आइए जानते हैं कि लाल पत्ता गोभी को डाइट में शामिल करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। कैंसर का खतरा हो सकता है कम: कई अध्ययनों के मुताबिक, लाल पत्ता गोभी में मौजूद एंथोसायनिन 36 प्रकार के कैंसर रोधी रसायन प्रदान करते हैं। इसके अलावा, लाल पत्ता गोभी में ग्लूकोसाइनोलेट्स (एक प्राकृतिक यौगिक) होता है, जो आइसोथियोसाइनेट यौगिकों में टूट जाता है। इन यौगिकों में कैंसर विरोधी प्रभाव होते हैं और ये मूत्राशय, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम कर सकते हैं। वजन घटाने में है सहायक: लाल पत्ता गोभी डाइटरी फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है और इसमें कम कैलोरी होती है। डाइटरी फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखकर फालतू के खाने से बचाने में मदद करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, डाइटरी फाइबर मेटाबॉलिज्म की कार्यक्षमता को बढ़ाकर शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी काफी मदद कर सकता है। इम्युनिटी मजबूत करने में है सहायक: लाल पत्ता गोभी विटामिन- सी और विटामिन- के का एक अच्छा स्रोत है। ये विटामिन्स इम्युनिटी को मजबूती प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कॉपर और फ्लेवोनोइड्स की अधिक मात्रा मौजूद होती है, जो इसे संक्रमण से लड़ने वाले ऊतकों और कोशिकाओं के उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस वजह से लाल पत्ता गोभी को डाइट में शामिल करना अच्छा है। पाचन क्रिया के लिए है लाभदायक: पाचन क्रिया से जुड़ी समस्याएँ पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। अगर आप अपनी पाचन क्रिया को तरह-तरह की समस्याओं से सुरक्षित रखते हुए स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में लाल पत्ता गोभी को शामिल करें। लाल पत्ता गोभी में कई ऐसे रासायनिक यौगिक भी मौजूद होते हैं, जो पाचन क्रिया में बाधा डालने वाले सूक्ष्मजीवों को खत्म करने का काम करते हैं। इससे पाचन क्रिया में सुधार हो सकता है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद: एंथोसायनिन एंटी-ऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-कार्सिनोजेनिक गुणों से भरपूर लाल पत्ता गोभी कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। लाल पत्ता गोभी का सेवन हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए लाल पत्ता गोभी का सेवन करना लाभदायक है।

को खत्म करने का काम करते हैं। इससे पाचन क्रिया में सुधार हो सकता है। हृदय के स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद: एंथोसायनिन एंटी-ऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-कार्सिनोजेनिक गुणों से भरपूर लाल पत्ता गोभी कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती है। लाल पत्ता गोभी का सेवन हाई ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए लाल पत्ता गोभी का सेवन करना लाभदायक है।